



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2013/पौष 11, 1934

No. 2]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2013/PAUSA 11, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2013

का.आ. 2(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2608(अ), तारीख 21-11-2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 20-11-2011 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के कि.मी. 400.100 से कि.मी. 421.775 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने, चौड़ा करने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन 28-1-2012 तारीख को "पीपुल्स समाचार", ब्यावरा एवं 26-1-2012 तारीख को "पत्रिका" ब्यावरा में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी वित्तीयों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (मोपाल ब्यावरा खण्ड) कि०मी० 400.100 से कि०मी० 421.775 तक चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित भूमि (हेक्टेयर)	भूस्वामी / हितकर व्यक्ति के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	राजगढ़	ब्यावरा	मोतीपुरा	424	निजी	सिंचित	0.800	छोटेलाल पिता प्रभुलाल जाति अहीर पता नि. अदलपुरा ते. (नरसिंहगढ़) भूमि स्वामी
				373	निजी	सिंचित	1.680	रामचरण, रतनलाल उंकार रामबगस लालजीराम हजारीलाल पिता मांगी लाल जाति दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
				342/1	निजी	सिंचित	0.330	रामचरण, रतनलाल उंकार रामबगस लालजीराम हजारीलाल पिता मांगी लाल जाति दांगी पता नि. ग्राम
				364/3	निजी	सिंचित	0.240	छबीलाल पिता चैनसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम
				364/2	निजी	सिंचित	0.370	दुलीचंद्र आ. चैनाजी दांगी निवासी ग्राम
				364/1	निजी	सिंचित	0.200	हिरालाल आ. चैनाजी जाति दांगी पता नि. ग्राम
				355/2	निजी	सिंचित	0.220	जानकी साई पत्नी देवकिशन जाति दांगी निवासी ग्राम
				353/2	निजी	सिंचित	0.100	मोहनलाल पिता गंगाधर जाति दांगी निवासी ग्राम
				353/1	निजी	सिंचित	0.120	मोहनलाल पिता गंगाधर जाति दांगी निवासी ग्राम
				352/2	निजी	सिंचित	0.230	मांगीलाल पिता चैनाजी जाति दांगी निवासी ग्राम
				351	निजी	सिंचित	0.250	हजारीलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी निवासी ग्राम
				350	निजी	सिंचित	0.350	हजारीलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी निवासी ग्राम
				348	निजी	सिंचित	0.320	हजारीलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी निवासी ग्राम
				347	निजी	सिंचित	0.320	हजारीलाल पुत्र रामलाल जाति दांगी निवासी ग्राम
				342/3/3	निजी	सिंचित	0.100	श्रीलाल पिता बैजनाथ जाति दांगी निवासी ग्राम
				342/3/1	निजी	सिंचित	0.100	श्रीलाल पिता बैजनाथ जाति दांगी निवासी ग्राम
				342/3/2/1	निजी	सिंचित	0.100	पुरुषोत्तम पिता भागीरथ जाति दांगी निवासी ग्राम
				342/3/2/2	निजी	सिंचित	0.020	पुरुषोत्तम पिता भागीरथ जाति दांगी निवासी ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				342/2/2	निजी	सिंचित	0.250	जगदीश पिता कालूराम दांगी निवासी ग्राम
				342/2/1	निजी	सिंचित	0.250	रामेश्वर आ. कालूराम निवासी ग्राम
				340	निजी	सिंचित	0.450	भंवरलाल पित देवीराम निवासी ग्राम
				344/2	निजी	सिंचित	0.090	छमाबाई बेवा रामकिशन, दिनेश पिता रामकिशन दांगी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.68
				344/1	निजी	सिंचित	0.170	राधेश्याम आ. देवीराम, मुकेश, विष्णु पिता रामकिशन सुल्कीबाई पुत्री रामकिशन दांगी निवासी ग्राम
				355/1	निजी	सिंचित	0.300	देवकिशन पिता जगन्नाथ जाति दांगी पता नि. ग्राम
2	राजगढ़	ब्यावर	कोलुखेड़ी	201/1	निजी	सिंचित	0.070	कन्हैयालाल पिता भागीरथ जाति अहीर,
				198	निजी	सिंचित	0.570	विजय सिंह पिता प्रभूलाल जाति अहीर
				192/1/1	निजी	सिंचित	0.320	राधेश्याम आ. कवरलाल दांगी
				191	निजी	सिंचित	0.230	भवरलाल जगननाथ गोरधन आ. गिरधारी मांगी बाई बेवा गिरधारी देवीराम पिता शंकरलाल नवीबाई बेवा घीसा,
				190/1	निजी	सिंचित	0.235	गंगाराम पिता भंवरलाल जाति अहीर
				190/2	निजी	सिंचित	0.235	कालूराम आ. भवरलाल अहीर
				189	निजी	सिंचित	0.500	गंगाराम पिता जगन्नाथ जाति दांगी
				187	निजी	सिंचित	0.570	शिवनारायण , देवीसिंह, गंगाराम, कालूराम आ. किशनलाल, बूली बेवा किशनलाल दांगी
3	राजगढ़	ब्यावर	खरेदिया कंला	311/1	निजी	सिंचित	0.010	नारायणोबाई पाल्. फूलसिंह जाति अहीर पता नि. ग्राम
				311/2	निजी	सिंचित	0.377	भैरोसिंह आ. समंदर सिंह गौराबाई बेवा समन्दर सिंह
				306	निजी	सिंचित	0.514	रामचरण प्रहलाद पिता लक्ष्मिचन्द गोरधन पिता पन्नलाल जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम चौकी
				305/2	निजी	सिंचित	0.061	बृजेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह जाति गूजर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				308/1	निजी	सिंचित	0.100	जगन्नाथ, हीरालाल आ. गुलाब सिंह, प्रहलाद, बनेसिंह रामचरण आ. देवचंद रामकली बेवा देवचंद हजारीलाल बलराम आ. दौलतराम प्रेमबाई पुत्री दौलतराम भवरीबाई पुत्री दौलतराम भूमिस्वामी
				308/2	निजी	सिंचित	0.061	जगन्नाथ, हीरालाल आ. गुलाब सिंह, प्रहलाद, बनेसिंह रामचरण आ. देवचंद रामकली बेवा देवचंद हजारीलाल बलराम आ. दौलतराम प्रेमबाई पुत्री दौलतराम भवरीबाई पुत्री दौलतराम भूमिस्वामी
4	राजगढ़	ब्यावरा	पगारी	219	निजी	सिंचित	0.110	रामचरण पिता हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सोनकच्छ तह. नरसिंहगढ
				218	निजी	सिंचित	0.730	भगवानसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत
				214/4	निजी	सिंचित	0.170	नारायण पिता गोपी लाल जाति दांगी
				214/3	निजी	सिंचित	0.068	रतनलाल आ. रंगलाल जाति दांगी निवासी अमलिया हाट
				214/2	निजी	सिंचित	0.080	प्रभुलाल आ. रंगलाल जाति दांगी निवासी अमलिया हाट
				214/1	निजी	सिंचित	0.080	कन्हैयालाल आ. रंगलाल जाति दांगी निवासी अमलिया हाट
				213	निजी	सिंचित	0.100	देवचन्द पिता रतनलाल जाति दांगी
				209/1	निजी	सिंचित	0.070	रूपसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत
				208	निजी	सिंचित	0.506	रूपसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत
				209/2	निजी	सिंचित	0.230	कालूराम रामप्रसाद पिता धीसालाल जाति दांगी निवासी अमलिया हाट
				203/2	निजी	सिंचित	0.126	दिलीप सिंह आ0 धीरपसिंह जाति राजपूत
				202	निजी	सिंचित	0.759	रंजीतसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत
				200/2	निजी	सिंचित	0.560	तवरसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत
				199/1	निजी	सिंचित	0.230	तवरसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				199/2	निजी	सिंचित	0.470	बाबूल सिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत
				197/1	निजी	सिंचित	0.220	जगदीश सिंह आ. लालसिंह जाति राजपूत
				197/2	निजी	सिंचित	0.270	सजनसिंह आ. मदनसिंह जाति राजपूत
				197/3	निजी	सिंचित	0.210	बनेसिंह पिता सरदारसिंह, पिता सरदार सिंह सरूप बाई पुत्री सरदार सिंह जाति राजपूत
				197/4/1	निजी	सिंचित	0.090	देवीसिंह आ. मोड़सिंह, कंचनबाई बेवा मोड़सिंह जाति राजपूत
				197/4/2	निजी	सिंचित	0.110	केशरसिंह आ. मोड़सिंह, कंचनबाई बेवा मोड़सिंह जाति राजपूत
				198	निजी	सिंचित	0.430	गणपतसिंह पिता जालमसिंह जाति राजपूत
				223	निजी	सिंचित	0.202	गोपालसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत
				227	निजी	सिंचित	0.081	गोपालसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत
				228	निजी	सिंचित	0.110	वजरंगसिंह पिता शिवराजसिंह
				237	निजी	सिंचित	0.075	शिवराजसिंह पिता पर्वतसिंह
				238	निजी	सिंचित	0.060	जालमसिंह पिता रामसिंह
				298/238	निजी	सिंचित	0.063	भगवतसिंह आ. नवलसिंह
				239	निजी	सिंचित	0.061	जालमसिंह पिता रामसिंह
				240	निजी	सिंचित	0.010	बाबूलसिंह पिता जालमसिंह
				299/239	निजी	सिंचित	0.089	बाबूलसिंह पिता जालमसिंह
				243	निजी	सिंचित	0.037	वजरंगसिंह पिता शिवराजसिंह
				192	निजी	सिंचित	0.026	बनेसिंह, शिवसिंह पिता सरदार सिंह, सरूप बाई पुत्री सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम
				193	निजी	सिंचित	0.037	बनेसिंह, शिवसिंह पिता सरदार सिंह, सरूप बाई पुत्री सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम
5	राजगढ़	ब्यावरा	लसुडिया महाराज	472/1/1	निजी	सिंचित	0.375	रामनारायण, भवरलाल आ. बापूलाल
				472/1/2	निजी	सिंचित	0.200	रुगनाथ आ. सालगराम
				472/3	निजी	सिंचित	0.020	साधना पत्नि हेमंतसिंह सिसोदिया
				472/2	निजी	सिंचित	0.020	मोहनलाल आ. कन्हैयालाल
				472/4	निजी	सिंचित	0.020	न्यासीबाई पत्नि कन्हैयालाल
				472/5	निजी	सिंचित	0.022	गोकुल प्रसाद आ. बंशीलाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				472/6	निजी	सिंचित	0.021	बद्रीलाल आ. हरलाल
				472/7	निजी	सिंचित	0.005	रतनलाल आ. किशनलाल
				472/8	निजी	सिंचित	0.017	धनीलाल आ. श्रीलाल
				471	निजी	सिंचित	0.440	कैलाशनारायण पिता रामबगस
				470	निजी	सिंचित	0.120	मांगीलाल पिता. देवीराम
				469/2	निजी	सिंचित	0.070	भागीरथ आ. गोपीलाल
				469/1/1	निजी	सिंचित	0.020	कैलाश आ. शंकरलाल
				469/1/2	निजी	सिंचित	0.040	सीताराम आ. मांगीलाल
				468/1/1	निजी	सिंचित	0.050	कालूराम आ. रंगलाल
				468/1/2	निजी	सिंचित	0.045	कंवरलाल आ. रंगलाल
				468/2	निजी	सिंचित	0.095	प्रेमनारायण, विष्णु रामबाबू आ. हीरालाल, धापूबाई बेवा हीरालाल
				467/1	निजी	सिंचित	0.200	नरसंगलाल पिता रामा
				467/2	निजी	सिंचित	0.270	देवचंद्र पिता गोपीलाल, सुंदरबाई बेवा गोपीलाल
				466/2/1	निजी	सिंचित	0.213	भवरलाल आ. सालगराम
				466/2/2	निजी	सिंचित	0.212	रामरतन आ. सालगराम
				466/1	निजी	सिंचित	0.360	राधाकिशन आ. देवीराम
				465/1	निजी	सिंचित	0.200	नाथूलाल आ. दोला
				465/2	निजी	सिंचित	0.140	पन्नालाल आ. दोला
				464/3	निजी	सिंचित	0.340	रामनारायण पिता जगन्नाथ
				464/2	निजी	सिंचित	0.350	हरलाल आ. जगन्नाथ
				464/1/1	निजी	सिंचित	0.100	रामेश्वर, जगदीश आ. गोरधन गंगाबाई बेवा गोरधन
				464/1/2	निजी	सिंचित	0.130	अमरसिंह आ. मदनलाल
				463	निजी	सिंचित	0.185	मांगीलाल आ. जगन्नाथ
				462	निजी	सिंचित	0.090	रामबगस पिता बाबर
				461/1/2	निजी	सिंचित	0.020	रामचरण पिता मांगीलाल
				461/2/2	निजी	सिंचित	0.020	जगदीश आ. मांगीलाल
				459/1	निजी	सिंचित	0.090	बद्रीलाल आ. रामबगस
				458	निजी	सिंचित	0.090	हरलाल पिता जगन्नाथ
				457/3	निजी	सिंचित	0.100	गीताबाई पत्नि बद्रीलाल
				457/2/1	निजी	सिंचित	0.040	जगदीश आ. नंदराम
				457/2/2	निजी	सिंचित	0.040	ओमप्रकाश आ. नंदराम
				457/2/3	निजी	सिंचित	0.040	छीतालाल आ. नंदराम
				457/1	निजी	सिंचित	0.120	लालजीराम आ. रामलाल
				456/1	निजी	सिंचित	0.075	प्रेमनारायण आ. मदनलाल
				456/4	निजी	सिंचित	0.075	रंगलाल आ. मदनलाल
				455/1	निजी	सिंचित	0.265	शिवप्रसाद आ. रामलाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				456/2	निजी	सिंचित	0.070	रामबापू आ० मदनलाल
				456/3	निजी	सिंचित	0.070	विष्णुप्रसाद आ० मदनलाल
				455/2	निजी	सिंचित	0.265	श्रीलाल, मोतीलाल आ. पार्थी
				481	निजी	सिंचित	0.020	प्रेमबाई पिता गुलाब, बंशीलाल पिता श्रीलाल
				477/1	निजी	सिंचित	0.010	बालाप्रसाद आ. मांगीलाल
				485	निजी	सिंचित	0.190	अनारबाई पत्नि गणेशराम
				486	निजी	सिंचित	0.230	रामचंद्र आ. हीरालाल
				487	निजी	सिंचित	0.210	हीरालाल आ. मदनलाल
				488	निजी	सिंचित	0.130	मांगीलाल आ. जगन्नाथ
				489/1	निजी	सिंचित	0.055	देवचंद्र आ. कालू
				489/2	निजी	सिंचित	0.055	तुलाराम आ. नाथू जाति दांगी
				709/490 710/490	निजी	सिंचित	0.045	तुलाराम आ. नाथ
				630/490	निजी	सिंचित	0.072	देवचंद्र आ. कालू, सुशीलाबाई बेवा कालू
				496/1	निजी	सिंचित	0.096	सुरेश कुमार आ. शंभू सिंह
				496/2	निजी	सिंचित	0.004	सुरेश कुमार आ. शंभू सिंह
				497	निजी	सिंचित	0.130	राधेश्याम आ. मांगीलाल
				498	निजी	सिंचित	0.100	राधेश्याम आ. मांगीलाल
				461/1/1	निजी	सिंचित	0.120	राधेश्याम आ. मांगीलाल
				500/1	निजी	सिंचित	0.225	मोहनलाल आ. प्रभुलाल
				500/2	निजी	सिंचित	0.225	हरिप्रसाद आ. प्रभुलाल
				451/1	निजी	सिंचित	0.160	प्रेमनारायण पिता बद्रीलाल
				451/2	निजी	सिंचित	0.165	हरिप्रसाद आ. बद्रीलाल
				450	निजी	सिंचित	0.160	रामनारायण आ. जगन्नाथ
				449/1	निजी	सिंचित	0.165	मुकेश आ. गोबरधन
				449/2	निजी	सिंचित	0.165	मोतीलाल आ. देवीलाल
				448/1	निजी	सिंचित	0.060	गंगाराम आ. बाबर
				448/2	निजी	सिंचित	0.120	राकेश, सुरेश ना.बा. आ० देवचंद्र, हीरालाल आ. देवचंद्र सरपरस्त शान्तीबाई बेवा देवचन्द्र बगेरह
				447/1	निजी	सिंचित	0.045	श्रीलाल, मोतीलाल आ. परमीलाल
				447/2/1	निजी	सिंचित	0.025	रमेश, रामचंद्र, हरिनारायण आ. नाथूलाल
				447/2/2	निजी	सिंचित	0.020	दौलतराम, रामप्रसाद आ. भवरलाल
				461/2/1	निजी	सिंचित	0.010	रामचरण आ. मांगीलाल
				446/1	निजी	सिंचित	0.010	बलराम आ. देवराम
				490/1	निजी	सिंचित	0.020	देवचंद्र आ. कालूराम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				490/2	निजी	सिंचित	0.015	तुलाराम आ. नाथू
				490/3	निजी	सिंचित	0.015	तुलाराम आ. नाथू
6	राजगढ़	ब्यावरा	बारवां	1151/1/3	निजी	सिंचित	0.063	कैलाश नारायण आ. बापूलाल
				1151/1/2	निजी	सिंचित	0.127	कैलाश नारायण आ. बापूलाल जाति दांगी निवासी लसूडिया महाराज
				1151/1/1	निजी	सिंचित	0.010	बापूलाल पिता देवीलाल हि. 41 पैसा, जगदीश रामबाबू पिता कन्हैयालाल जाति दांगी हि. 0.59 पैसा निवासी लसूडिया महाराज
				1137/3	निजी	सिंचित	0.180	गीताबाई पत्नि गोकुल सिंह दांगी
				1137/2	निजी	सिंचित	0.170	संतोष कुमार पिता मांगीलाल जाति दांगी
				1137/1	निजी	सिंचित	0.220	संतोष कुमार पिता मांगीलाल जाति दांगी
				1138	निजी	सिंचित	0.450	श्री रामजानकी मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय
				1116	निजी	सिंचित	0.120	रामचरण आ. भवरसिंह
				1114/2/1	निजी	सिंचित	0.010	जगदीश, भगवतप्रसाद पप्पू आ. राधेश्याम, लीलाबाई बेवा राधेश्याम
				1114/2/2	निजी	सिंचित	0.410	गंगाराम आ. बलदेव, संतोष कुमार आ. मांगीलाल
				1086	निजी	सिंचित	0.140	जगदीश आ. राधेश्याम साहू
				1087	निजी	सिंचित	0.260	जगदीश आ. राधेश्याम साहू
				1088/1/1	निजी	सिंचित	0.240	धूलाल आ. रामलाल
				1088/1/2	निजी	सिंचित	0.300	देवा आ. रामलाल
				1088/1/3	निजी	सिंचित	0.400	रामचरण, बाबूलाल, बट्टीप्रसाद, कैलाश आ. मदनलाल
				1090	निजी	सिंचित	0.450	मानसिंह, मदन, रामप्रसाद आ. गंगाधर
				1094/1/1	निजी	सिंचित	0.130	धापूबाई पत्नि रामबगस
				1094/1/2	निजी	सिंचित	0.130	ओमप्रकाश आ. मोतीलाल
				1094/1/3	निजी	सिंचित	0.060	शांतिबाई पत्नि गंगाप्रसाद
				1094/2/2	निजी	सिंचित	0.100	रामेश्वर, चुन्नीलाल आ. रामबगस
				1094/3	निजी	सिंचित	0.120	रामनारायण आ. छीताराम
				1095	निजी	सिंचित	0.250	रामबगस आ. धीसाराम
				209/1/1/1	निजी	सिंचित	0.292	मांगीलाल, शिवलाल आ. बनशीलाल
				209/1/1/2	निजी	सिंचित	0.008	मांगीलाल, शिवलाल आ. बनशीलाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				209/2	निजी	सिंचित	0.042	दिनेश कुमार आ. शिवलाल जाति दांगी निवासी ग्राम
				83	निजी	सिंचित	0.110	दिनेश कुमार आ. शिवलाल
				82/1	निजी	सिंचित	0.300	रामचरण आ. देवीलाल
				82/2	निजी	सिंचित	0.300	धीसालाल आ. देवीलाल
				67	निजी	सिंचित	0.430	रामचरण, शिवप्रसाद आ. मदनलाल दांगी
				84/5	निजी	सिंचित	0.030	गंगाराम पिता रंगलाल जाति दांगी निवासी ग्राम
				77/2	निजी	सिंचित	0.060	चंदरलाल आ. हजारीलाल, शांतिबाई बेवा हजारीलाल
				75/1	निजी	सिंचित	0.010	रामचरण पिता देवीराम जाति दांगी
				75/2	निजी	सिंचित	0.010	भागीरथ पिता बद्रीलाल जाति दांगी
				1140/2	निजी	सिंचित	0.010	गंगाराम पिता जगन्नाथ जाति दांगी
				1140/3	निजी	सिंचित	0.010	गोपाल ना.बा. पिता अमरसिंह स.र अमरसिंह पिता मानसिंह जाति दांगी
				1149	निजी	सिंचित	0.090	रामेश्वर, जगदीश प्रसाद आ. गोरधन
				1140/1	निजी	सिंचित	0.050	रंगलाल आ. देवा दांगी
				1108	निजी	सिंचित	0.010	मानसिंह, मदनलाल, रामप्रसाद आ. गंगाधर
				1107	निजी	सिंचित	0.010	शिवनारायण आ. देवा
				1103/1	निजी	सिंचित	0.020	शंभूलाल आ. कालू
				1103/2	निजी	सिंचित	0.020	रामबगस आ. कालू
				1100/1/1	निजी	सिंचित	0.040	दयाराम आ. रामेश्वर
				1100/1/2	निजी	सिंचित	0.040	रामनारायण आ. ईसर जाति दांगी
				1099/1	निजी	सिंचित	0.060	जगदीश प्रसाद आ. गोकुल प्रसाद
				1100/1/5	निजी	सिंचित	0.040	जगदीश प्रसाद आ. गोकुल प्रसाद
				1100/1/2	निजी	सिंचित	0.040	राधेश्याम आ. किशनलाल
				1098/1	निजी	सिंचित	0.035	मोतीलाल रामबक्श आ. बापूलाल
				1098/2	निजी	सिंचित	0.035	शिवप्रसाद आ. मदनलाल
				77/1/2/1	निजी	सिंचित	0.020	शिवचरण आ. गंगाराम
				77/1/2/2	निजी	सिंचित	0.080	गुलाबबाई पत्नि मांगीलाल
				77/2	निजी	सिंचित	0.060	चंदरलाल आ. हजारीलाल, शांतिबाई बेवा हजारीलाल
				75/1	निजी	सिंचित	0.010	रामचरण आ. देवीराम
				75/2	निजी	सिंचित	0.010	धीसालाल आ. देवीराम
7	राजगढ़	ब्यावरा	बाईहेड़ा	663	निजी	सिंचित	0.650	रतनलाल पिता देवा दांगी
				661/2/2	निजी	सिंचित	0.200	अमृतलाल पिता कन्हैयालाल ब्राह्मण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				661/2/1	निजी	सिंचित	0.060	हजारीलाल आ. देवीराम
				660/2	निजी	सिंचित	0.162	छमाबाई पति लालजीराम जाति दांगी
				659	निजी	सिंचित	0.182	शारदाबाई पत्नी जगदीशप्रसाद शांतीबाई, कान्तीबाई, गीताबाई पिता हजारीलाल, मुरलीधर पिता किशनलाल, लक्ष्मीनारायण, हरी नारायण आ० जगन्नाथ जाति ब्राह्मण
				657	निजी	सिंचित	0.470	शारदाबाई पत्नी जगदीशप्रसाद शांतीबाई, कान्तीबाई, गीताबाई पिता हजारीलाल, मुरलीधर पिता किशनलाल, लक्ष्मीनारायण, हरी नारायण आ० जगन्नाथ जाति ब्राह्मण
				648/1	निजी	सिंचित	0.030	दयाराम पिता मेहताव
				648/2	निजी	सिंचित	0.030	गंगाराम पिता मेहताव
				648/3	निजी	सिंचित	0.029	रामबाबू घनश्याम पिता घीसलाल, रोड़ी बाई बेवा घीसलाल
				647	निजी	सिंचित	0.105	देवबगस रंगलाल पुत्र भंवरलाल दांगी
				646/1	निजी	सिंचित	0.154	देवबगस रंगलाल पुत्र भंवरलाल दांगी
				645/1	निजी	सिंचित	0.200	दयाराम पिता मेहताव
				645/2	निजी	सिंचित	0.200	गंगाराम आ. मेहताव
				645/3/1	निजी	सिंचित	0.063	रामबाबू आ. घीसलाल
				645/3/2	निजी	सिंचित	0.063	मोहन आ. भगवतसिंह
				644	निजी	सिंचित	0.340	मदिर श्रीराम जानकी व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				643	निजी	सिंचित	0.125	कैलाशनारायण पिता भंवरलाल द्रोपतिबाई पुत्री बट्टी लाल, रणछोड़दास, रामचरनदास, पिता रतनदास, शिवनारायण, भागीरथ, पूनमचंद, सोरमबाई, कमलाबाई पिता मुरली प्रसाद, बसंतीलाल आ० कन्हैयालाल, जयनारायण आ० पुरषोत्तमदास, रामप्रसाद आ० सेवादास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				629	निजी	सिंचित	0.061	कैलाशनारायण पिता भवरलाल द्रोपतिबाई पुत्री बट्टी लाल, रणछोड़दास, रामचरणदास, पिता रतनदास, शिवनारायण, भागीरथ, पूनमचंद, सोरमबाई, कमलाबाई पिता मुरली प्रसाद, बसंतीलाल आ० कन्हैयालाल, जयनारायण आ० पुरषोत्तमदास, रामप्रसाद आ० सेवादास
				628	निजी	सिंचित	0.506	मोहनलाल, गोविन्द, गोपाल पिता रामलाल, गीताबाई बेवा रामलाल, बबलू, विशाल, प्रमोद, दिपक पिता श्यामबाबू, इन्द्रादेवी बेवा श्यामबाबू
				627	निजी	सिंचित	0.390	अमृतलाल, जगदीश पिता कन्हैयालाल, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण पिता जुगल किशोर, बलराम पिता लक्ष्मीनारायण, घीसालाल पिता सत्यनारायण, सीताराम आ० रामचरण
				626	निजी	सिंचित	0.030	अमृतलाल, जगदीश पिता कन्हैयालाल, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण पिता जुगल किशोर, बलराम पिता लक्ष्मीनारायण, घीसालाल पिता सत्यनारायण, सीताराम आ० रामचरण
				623	निजी	सिंचित	0.135	अमृतलाल, जगदीश पिता कन्हैयालाल, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण पिता जुगल किशोर, बलराम पिता लक्ष्मीनारायण, घीसालाल पिता सत्यनारायण, सीताराम आ० रामचरण
				1000/623	निजी	सिंचित	0.600	अमृतलाल, जगदीश पिता कन्हैयालाल, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण पिता जुगल किशोर, बलराम पिता लक्ष्मीनारायण, घीसालाल पिता सत्यनारायण, सीताराम आ० रामचरण
				601/1	निजी	सिंचित	0.045	मांगीलाल आ. भवरजी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				601/2	निजी	सिंचित	0.045	मदनलाल सोरमसिंह, भारतसिंह पिता* बद्रीलाल रमाबाई, कैलाशबाई, सरदारबाई पिता बद्रीलाल, गुलाबबाई बेवा बद्रीलाल
				599	निजी	सिंचित	0.089	मदनलाल सोरमसिंह, भारतसिंह पिता बद्रीलाल रमाबाई, कैलाशबाई, सरदारबाई पिता बद्रीलाल, गुलाबबाई बेवा बद्रीलाल
				196	निजी	सिंचित	0.437	दयालसिंह, रामबाबू, शांतीबाई, संतोषबाई आत्मज धीसालाल, भागीरथ, रामसिंह पिता प्रभुलाल, सरदार बाई, ग्यारसी बाई आ० प्रभुलाल, भजनसिंह पिता जगन्नाथ बद्रीलाल पिता श्यामलाल, बापूलाल, केदार, हरिसिंह पिता परताब, बनेसिंह आत्मज जगदीश जाति गुजर
				182/1	निजी	सिंचित	0.050	लखनसिंह, रामचरण सिंह आ. अमरसिंह
				182/2	निजी	सिंचित	0.050	मांगीलाल आ. भवरजी
				182/3	निजी	सिंचित	0.222	मदनलाल, भारतसिंह, सौरभसिंह आ० बद्रीलाल, रमाबाई, कैलाश बाई, सरदारबाई आ० बद्रीलाल, गुलाबबाई बेवा बद्रीलाल जाति गुजर
				177/1/1	निजी	सिंचित	0.093	मांगीलाल आ. गंगाराम
				177/1/2	निजी	सिंचित	0.093	कैलाशनारायण आ. गंगाराम
				177/1/3	निजी	सिंचित	0.094	रामचरण पिता गंगाराम
				175/1	निजी	सिंचित	0.040	प्रेमनारायण पिता हजारीलाल
				175/2	निजी	सिंचित	0.040	रामबाबू आ. हजारीलाल
				174/1	निजी	सिंचित	0.020	बद्रीलाल आ. हजारीलाल
				81	निजी	सिंचित	0.105	भवरलाल पिता बद्रीलाल, दयाराम आ० रामबगस, रतनलाल आ० रामबगस
				82/1	निजी	सिंचित	0.182	भवरलाल पिता बद्रीलाल, दयाराम आ० रामबगस, रतनलाल आ० रामबगस
				82/2	निजी	सिंचित	0.470	कचनबाई पत्नी रतनलाल
				87	निजी	सिंचित	0.400	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				93	निजी	सिंचित	0.500	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				95	निजी	सिंचित	0.160	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				96	निजी	सिंचित	0.850	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				104	निजी	सिंचित	0.500	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				105	निजी	सिंचित	0.350	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				94	निजी	सिंचित	0.110	बापूलाल , काशीराम पिता देवा
				97/1	निजी	सिंचित	0.075	बिष्णुप्रसाद पिता देवीराम
				97/2	निजी	सिंचित	0.075	गोविंदप्रसाद आ. देवीराम
				103	निजी	सिंचित	0.262	मांगीलाल कन्हैयालाल, आ० देवीराम ना. बा. पिता देवीराम, सरपरस्त माता धापू बाई बेवा देवीराम
				106/1	निजी	सिंचित	0.027	गुरु प्रसाद आ. अमरचंद्र
				106/2	निजी	सिंचित	0.026	नारायण प्रसाद आ. अमरचंद्र
				107/1	निजी	सिंचित	0.077	गुरु प्रसाद आ. अमरचंद्र
				107/2	निजी	सिंचित	0.077	नारायण प्रसाद आ. अमरचंद्र
				108	निजी	सिंचित	0.051	श्रीमति कृति गोयल पत्नि गीतेश गोयल
				109	निजी	सिंचित	0.177	श्रीमति कृति गोयल पत्नि गीतेश गोयल
				110	निजी	सिंचित	0.363	श्रीमति कृति गोयल पत्नि गीतेश गोयल
				111	निजी	सिंचित	0.286	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				98	निजी	सिंचित	0.030	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				113	निजी	सिंचित	0.114	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				115	निजी	सिंचित	0.900	मंदिर श्री जी महाराज व्यास्थापक कलेक्टर महोदय
				112	निजी	सिंचित	0.089	रामेश्वर आ. जगन्नाथ, जशोदाबाई बेवा जगन्नाथ
				114/1	निजी	सिंचित	0.101	कैलाशनारायण आ. गोपीलाल
				114/2	निजी	सिंचित	0.101	धीसीबाई पत्नि बद्रीलाल
				114/3	निजी	सिंचित	0.101	श्यामबाबू आ. रुगनाथ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				114/4	निजी	सिंचित	0.102	विजयसिंह आ. रूगनाथ
				672	निजी	सिंचित	0.101	लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल
				673	निजी	सिंचित	0.041	बिष्णुप्रसाद आ. जगन्नाथ
				674	निजी	सिंचित	0.161	लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण आ. जगन्नाथ वगेरह
				999/675	निजी	सिंचित	0.100	लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण आ. जगन्नाथ वगेरह
				681	निजी	सिंचित	0.040	रामकरण, शिवप्रसाद, हुकूमचंद आ० वेजनाथ, घनश्याम, ओमप्रकाश आ० बद्रीलाल, सुरेशचंद, अशोक, कैलाश, जगदीश आ० कुंजबिहारी, मु. बसंतीबाई बेवा कुंजबिहारी, गोकुल प्रसाद आ० हजारीलाल
				679	निजी	सिंचित	0.081	रामकरण, शिवप्रसाद, हुकूमचंद आ० वेजनाथ, घनश्याम, ओमप्रकाश आ० बद्रीलाल, सुरेशचंद, अशोक, कैलाश, जगदीश आ० कुंजबिहारी, मु. बसंतीबाई बेवा कुंजबिहारी, गोकुल प्रसाद आ० हजारीलाल
				183/2	निजी	सिंचित	0.010	भवरलाल पिता बद्रीलाल, दयाराम पिता रामबगस, रतनलाल आ० रामबगस
				602	निजी	सिंचित	0.010	दयालसिंह, रामबाबू आत्मज घीसालाल, संतोष बाई, शांतिबाई आ० घीसालाल, भागीरथ, रामासिंह आ० प्रभुलाल, सरदार बाई, ग्यारसी बाई आ० प्रभुलाल, भजनसिंह पिता जगन्नाथ, मु. सूरज बाई बेवा जगन्नाथ हि. 34 पैसा बद्रीलाल आ० श्यामलाल हि. 32 पैसा, बापूलाल, केदार, हरिसिंह आ० परताब, बनेसिंह आत्मज जगदीश हि. 34 पैसा गुजर नि० ग्राम भू-स्वामी
8	राजगढ़	ब्यावरा	लसुडीया गुजर	285/3	निजी	सिंचित	0.050	कृष्ण बल्लभ आ. घनश्यामदास, श्रीमति इन्द्रा बेवा राधा वल्लभ जाति महाजन नि० ब्यावरा
				285/2/1	निजी	सिंचित	0.205	कृष्ण बल्लभ आ. घनश्यामदास, श्रीमति इन्द्रा बेवा राधा वल्लभ जाति महाजन, नि० ब्यावरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				285/1	निजी	सिंचित	0.110	कृष्ण बल्लभ आ. घनश्यामदास, श्रीमति इन्द्रा बेवा राधा वल्लभ जाति महाजन नि० ब्यावरा
				285/2/2	निजी	सिंचित	0.025	कृष्ण बल्लभ आ. घनश्यामदास, श्रीमति इन्द्रा बेवा राधा वल्लभ जाति महाजन नि० ब्यावरा
				274	निजी	सिंचित	0.720	शिवलाल शंकरलाल पिता देवचन्द
				270/1/2	निजी	सिंचित	0.200	रोडिया पिता शम्भू कमलाबाई पिता शम्भू नाई
				270/1/3	निजी	सिंचित	0.200	गोरीशंकर आ. शंभूलाल
				270/3/1	निजी	सिंचित	0.185	रामकिशन आ. कालू
				270/3/2	निजी	सिंचित	0.185	श्यामबाबू आ. मांगीलाल
				259/1	निजी	सिंचित	0.225	केशर सिंह, दौलत राम, हरिसिंह, रामकिशन आ० रामबक्श, प्रेम बाई पुत्री रामबक्श, लक्ष्मी नारायण, शिवचरण आ० बालाबक्श, शैतान बाई, लीला बाई पुत्री बालाबक्श, प्रभुबाई बेवा बालाबक्श हि० 98 पैसे, देवसिंह आ० मांगीलाल, गंगा बाई बेवा मांगीलाल हि० 2 पैसे जाति दांगी
				257	निजी	सिंचित	0.560	रामकिशन पिता गोपीलाल जाति दांगी
				256/1	निजी	सिंचित	0.300	कृष्ण बल्लभ रामप्रसाद पिता भंवरलाल जमनीबाई बेवा भंवरलाल जाति दांगी
				255/1	निजी	सिंचित	0.030	कृष्ण बल्लभ रामप्रसाद पिता भंवरलाल जमनीबाई बेवा भंवरलाल
				259/2/1/1	निजी	सिंचित	0.112	देवीसिंह आ. मांगीलाल, शिवलाल आ. देवचन्द
				259/2/1/2	निजी	सिंचित	0.113	सुरेन्द्र सिंह आ० हिम्मत सिंह जाति ठाकुर
				256/2	निजी	सिंचित	0.250	देव बगस आ. रामनारायण भंवरी बाई बेवा रामनारायण
				256/3	निजी	सिंचित	0.200	शिवलाल आ. कालूराम जाति दांगी
				256/5	निजी	सिंचित	0.250	बद्रीलाल आ. कालूराम जाति दांगी
				212/1	निजी	सिंचित	0.160	विष्णुप्रसाद आ. रंगलाल जाति दांगी
				356/212	निजी	सिंचित	0.140	हजारीलाल आ. कालूराम जाति दांगी
				211/1/1	निजी	सिंचित	0.050	काशीराम आ. मोजीलाल दांगी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				211/1/3	निजी	सिंचित	0.080	रामप्रसाद, प्रेमनारायण, रामचन्द्र,
				281	निजी	सिंचित	0.010	घीसालाल पिता किशनलाल दांगी
				280	निजी	सिंचित	0.020	घीसालाल पिता किशनलाल दांगी
9	राजगढ़	ब्यावरा	पीपलहेला	875	निजी	सिंचित	0.860	देवीलाल पिता नंदराम जाति धाकड़
				874/1	निजी	सिंचित	0.140	लक्ष्मीचंद्र आ. उमेदराम
				874/2	निजी	सिंचित	0.240	भागनचंद्र आ. सालगराम
				927	निजी	सिंचित	0.230	बद्रीलाल पिता लक्ष्मीचंद्र जाति धाकड़
				918/2	निजी	सिंचित	0.090	शंकरलाल पिता रामलाल जाति धाकड़
				918/1	निजी	सिंचित	0.060	शिवलाल पिता रामलाल जाति धाकड़
				916/1/1	निजी	सिंचित	0.068	रंगलाल आ. शोभाराम
				916/1/2	निजी	सिंचित	0.034	रामनारायण आ. शोभाराम
				916/2	निजी	सिंचित	0.068	सिद्धनाथ आ. हरिराम
				916/3	निजी	सिंचित	0.060	सिद्धनाथ आ. हरिराम
				915	निजी	सिंचित	0.160	रामगोपाल पिता फूलचन्द जाति धाकड़
				883	निजी	सिंचित	0.200	गीता बाई पत्नि खेमचंद नागर
				882/1	निजी	सिंचित	0.038	भारती त्रिवेदी पत्नि विष्णु प्रसाद जाति ब्राह्मण नि: व्यावरा
				882/2	निजी	सिंचित	0.050	सुमन बाई पत्नि अंकुर कुमार
				882/3	निजी	सिंचित	0.060	पर्वत सिंह पिता राम नारायण
				881/1	निजी	सिंचित	0.020	चंद्रकांता देवी पत्नि नरेन्द्र सिंह
				881/2	निजी	सिंचित	0.020	चंद्रकांता देवी पत्नि नरेन्द्र सिंह
				881/3	निजी	सिंचित	0.050	अंकुर कुमार आ. शिवचरण
				880	निजी	सिंचित	0.020	तारादेवी पत्नि आनंदीलाल जाति सुतार
				870/1	निजी	सिंचित	0.060	लक्ष्मीचंद्र आ. उमेदराम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				870/3/1	निजी	सिधित	0.030	लक्ष्मीचंद्र आ. उमैदराम
				870/2	निजी	सिधित	0.060	श्यामाबाई पत्नि रामबाबू
				870/3/2	निजी	सिधित	0.030	भागचंद आ. सालगराम
10	राजगढ़	ब्यावरा	मुस	194	निजी	सिधित	0.160	मांगीलाल पिता देवचंद हजारी बाई बेवा देवचंद जाति दांगी
				192/1	निजी	सिधित	0.470	दौलतराम पिता रामबक्श जाति दांगी
				192/3	निजी	सिधित	0.441	देवचन्द पिता रामबक्श भूलीबाई बेवा रामबक्श जाति दांगी
				191	निजी	सिधित	0.139	देवचन्द पिता रामबक्श भूलीबाई बेवा रामबक्श जाति दांगी
				175	निजी	सिधित	0.120	समचरण, रामप्रसाद, राजाराम, राधेश्याम, लक्ष्मीनारायण आ. अमरा बगेरा, सरदार बाई, गीता बाई, चन्द्रकला बाई पुत्री अमर सिंह
				190	निजी	सिधित	0.300	नारायण आशाराम पिता उमैद-राम दांगी
				534/190	निजी	सिधित	0.035	नारायण आशाराम पिता उमैद-राम दांगी
				177	निजी	सिधित	0.049	रामचरण, रामप्रसाद, राजाराम, राधेश्याम, लक्ष्मीनारायण आ. अमरा बगेरा, सरदार बाई, गीता बाई, चन्द्रकला बाई पुत्री अमर सिंह
				179	निजी	सिधित	0.566	धरलाल कन्हैयालाल माधुलाल गिता उमैदराम जाति दांगी
				168/1/1	निजी	सिधित	0.031	सददाम हुसैन आ. फजल उरहमान मुसलमान नि० ब्यावरा
				168/1/2	निजी	सिधित	0.030	नारायण आ. उमैदराम दांगी
				167	निजी	सिधित	0.181	नारायण आशाराम पिता उमैद-राम दांगी
				166	निजी	सिधित	0.425	भागीरथदास पिता मुरलीदास जाति बैरागी
				533/114	निजी	सिधित	0.013	रामप्रसाद पिता गोपीलाल दांगी
				7	निजी	सिधित	0.041	मोतीलाल पिता गोपीलाल जाति दांगी
				6/2/1	निजी	सिधित	0.070	रामप्रसाद पिता गोपीलाल दांगी
				6/2/2	निजी	सिधित	0.077	राधेश्याम आ. गोपीलाल दांगी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				184	निजी	सिंचित	0.131	भैरवलाल कन्हैयालाल, माधुलाल पिता उम्मेदराम दांगी
				185/1	निजी	सिंचित	0.010	बद्रीलाल पिता रामबगस दांगी
				186	निजी	सिंचित	0.041	मोहनलाल आ. शांतिचंद्र महाजन
				6/1	निजी	सिंचित	0.016	श्यामलाल देवबक्श रंगलाल गंगाराम पिता
				6/2/3			0.03	मोटिलाल पिता गोपीलाल
11	राजगढ़	ब्यावरा	कंचनारिया	1723	निजी	सिंचित	0.220	उमा देवी बेवा श्यामसुन्दर, गीतादेवी बेवा जयनारायण निवासी ग्राम
				1722	निजी	सिंचित	0.300	मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़
				1721/1	निजी	सिंचित	0.140	मोना पत्नि मनोज गुप्ता निवासी ब्यावरा
				1721/2	निजी	सिंचित	0.200	ज्योति पत्नि आशीष गुप्ता निवासी ब्यावरा
				1720/2	निजी	सिंचित	0.089	मुकेश सीमा नाबालिक पिता भोंदू सरं माता भगवती बाई बेवा भोंदू जाति बृजा निवासी ग्राम
				1718	निजी	सिंचित	0.100	अनिता पत्नि कैलाश सोनी निवासी ब्यावरा
				1718/171 5/1	निजी	सिंचित	0.280	सुशील प्रसाद आ. बी.डी.व्ही प्रसाद ईसाई निवासी ब्यावरा
				1867/171 9	निजी	सिंचित	0.341	ममता अग्रवाल पत्नि सत्यनारायण जाति महाजन निवासी ब्यावरा
				1868/172 0	निजी	सिंचित	0.051	ममता अग्रवाल पत्नि सत्यनारायण जाति महाजन निवासी ब्यावरा
				1713/2	निजी	सिंचित	0.164	कांताबाई पत्नि घीसालाल जाति ब्रिजा निवासी ग्राम
				1713/1	निजी	सिंचित	0.974	राम रतन, विष्णु प्रसाद आ० घीसालाल, सुशिला बाई पत्नि राम रतन, सुनिता बाई पत्नि विष्णु प्रसाद निवासी ग्राम
				1852/171 3	निजी	सिंचित	0.180	गंगाराम आ० पन्नालाल निवासी ब्यावरा
				1809/171 3	निजी	सिंचित	0.250	उषा देवी पत्नि एन०आर०आर्य निवासी भोपाल
				1700	निजी	सिंचित	1.050	उषा देवी पत्नि एन०आर०आर्य निवासी भोपाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1699	निजी	सिंचित	0.572	उषा देवी पत्नि एन०आर०आर्य निवासी भोपाल
				1778/169 8/1	निजी	सिंचित	0.410	अनोखीलाल आ० देवबगस निवासी ग्राम
				1778/169 8/2	निजी	सिंचित	0.127	ओमप्रकाश सिंह आ. कमला प्रसाद सिंह जाति कुर्मी निवासी ब्यावरा
				1777/169 7/1	निजी	सिंचित	0.076	अनोखीलाल आ० देवबगस निवासी ग्राम
				1698	निजी	सिंचित	0.139	अनोखीलाल आ० देवबगस निवासी ग्राम
				1676	निजी	सिंचित	0.180	अमरसिंह पिता पूरिया जाति खाती निवासी ग्राम
				1681	निजी	सिंचित	0.360	अमरसिंह पिता पूरिया जाति खाती निवासी ग्राम
				1682/1	निजी	सिंचित	0.025	हरकिशन, कांताप्रसाद आ० गंगाधर
				1682/2	निजी	सिंचित	0.112	सविता पत्नि आर०के०वर्मा निवासी मुल्तानपुरा
				1682/3	निजी	सिंचित	0.113	सविता पत्नि आर०के०वर्मा निवासी मुल्तानपुरा
				1683	निजी	सिंचित	0.038	मंदिर श्री लक्ष्मीकांतजी महाराज, राजगढ़ पुजारी हेमनंद आ० रामचन्द्र शर्मा प्रबंधक कलेक्टर महोदय
				1684	निजी	सिंचित	0.076	मंदिर श्री लक्ष्मीकांतजी महाराज, राजगढ़ पुजारी योगेन्द्र आ० रामचन्द्र शर्मा प्रबंधक कलेक्टर महोदय राजगढ़
				1685/1	निजी	सिंचित	0.088	पदमा शर्मा पत्नि राधेश्याम शर्मा
				1685/2	निजी	सिंचित	0.088	पदमा शर्मा पत्नि राधेश्याम शर्मा निवासी राजगढ़
				1686/1	निजी	सिंचित	0.170	अंशुमान आ० राजेन्द्र कुमार निवासी ब्यावरा
				1686/2	निजी	सिंचित	0.170	उषा चौरसिया पत्नि श्याम सुन्दर चौरसिया निवासी ब्यावरा
				1688/1/1	निजी	सिंचित	0.107	रामदयाल आ० लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम
				1688/1/2	निजी	सिंचित	0.013	हरकिशन, आ० चेना निवासी ग्राम
				1688/1/3	निजी	सिंचित	0.125	रिलाईन्स इन्फोकाम लि० कचनारिया (टावर)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1688/1/4	निजी	सिंचित	0.125	रिलाईन्स इन्फोकाम लि० कचनारिया (टावर)
				1689/3	निजी	सिंचित	0.083	हरिकिशन आ० चेना निवासी ग्राम
				1689/2	निजी	सिंचित	0.215	ब्रजगोपाल आ० बद्रीलाल निवासी खिलचीपुर हा.मु. ब्यावरा
				1689/1	निजी	सिंचित	0.160	दुर्गा प्रसाद आ. सिद्धलाल खाती नि.ग्रा
				1743/1	निजी	सिंचित	0.100	अखण्ड परम धाम, दिलसाद गार्डन पाकेट आर. के. सामने न्यू दिल्ली 95 द्वारा पदेन संचालक स्वामी चेतनानंद जी गुरु श्री स्वामी परमानंद जी महाराज निवासी अखण्ड परमधाम हरिद्वार (उ.प्र)
				1743/2	निजी	सिंचित	0.050	गोम्टेस फार्मस द्वारा मनमोहन चण्डक आ. शांतिचंद्र चण्डक निवासी ब्यावरा
				1732/1	निजी	सिंचित	0.040	लक्ष्मीनारायण आ० अमरसिंह दांगी निवासी भूरा
				1731/2/2	निजी	सिंचित	0.040	गोविन्दप्रसाद आ हीरालाल खाती निवासी ग्राम
				1744/1/1	निजी	सिंचित	0.010	श्रीमति मधु पत्नि मनमोहन चण्डक निवासी ब्यावरा
				1730/1	निजी	सिंचित	0.140	गोविन्दप्रसाद आ हीरालाल निवासी ग्राम
				1729	निजी	सिंचित	0.090	गोविन्दप्रसाद आ हीरालाल निवासी ग्राम
				1642	निजी	सिंचित	0.100	देवीलाल आ० हजारीलाल निवासी ग्राम
				1646	निजी	सिंचित	0.215	देवीलाल आ० हजारीलाल निवासी ग्राम
				1647/1	निजी	सिंचित	0.185	उमराव आ० पन्नालाल निवासी ग्राम
				1647/2/1/1	निजी	सिंचित	0.036	श्रीमति मोली मेथ्यू पत्नि एम.एन. मेथ्यू जाति इसाई निवासी ब्यावरा
				1647/2/1/2	निजी	सिंचित	0.343	श्रीमति मोली मेथ्यू पत्नि एम.एन. मेथ्यू जाति इसाई निवासी ब्यावरा
				1647/2/2	निजी	सिंचित	0.186	श्रीमति मोली मेथ्यू पत्नि एम.एन. मेथ्यू जाति इसाई निवासी ब्यावरा
				1645/2	निजी	सिंचित	0.220	श्रीमति मोली मेथ्यू पत्नि एम.एन. मेथ्यू जाति इसाई निवासी ब्यावरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1665	निजी	सिधित	0.379	मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज प्रबंधक कलेक्टर महोदय पुजारी मांगीलाल पिता लक्ष्मीनारायण ब्राम्हण
				1753	निजी	सिधित	0.320	दरयावनोरंग पुत्री रामचन्द चमार निवासी ग्राम
				1645/1	निजी	सिधित	0.039	रामदयाल आ० दरयावसिंह निवासी ग्राम
				1660/1	निजी	सिधित	0.145	कमलादेवी पत्नि बल्लभदास निवासी ब्यावरा
				1660/2	निजी	सिधित	0.935	बेबीबाई पत्नि दरयावसिंह निवासी ग्राम
				1662	निजी	सिधित	0.63	सुखराम आ० इसरलाल निवासी ग्राम
				1663	निजी	सिधित	0.468	वल्लभदास आ० मिश्रीलाल पाराशर निवासी ब्यावरा
				1664/1	निजी	सिधित	0.088	बृजमोहन आ० रामप्रसाद निवासी ग्राम
				1664/2	निजी	सिधित	0.089	मांगीलाल आ० लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम
				1670/3	निजी	सिधित	0.140	शुशीलाबाई पत्नि श्यामसुन्दर निवासी ब्यावरा
				1670/2	निजी	सिधित	0.030	शुशीलाबाई पत्नि श्यामसुन्दर निवासी ब्यावरा
				1671	निजी	सिधित	0.050	अजब कुवर पत्नि रूप सिंह निवासी ब्यावरा
				1670/1	निजी	सिधित	0.016	रमेश आ. हजारीलाल निवासी ग्राम
				1435	निजी	सिधित	0.126	रामनारायण आ० धौसालाल निवासी ग्राम
				1422/1	निजी	सिधित	0.025	ओमप्रकाश आ० ब्रह्मदत्त महाजन निवासी ब्यावरा
				1422/2	निजी	सिधित	0.025	आशुतोष सर्वेश ना०बा० पिता गोपाल दास ना. दिव्या पुत्री गोपाल दास संरक्षक माता चन्द्रकांता पत्नि गोपालदास महाजन निवासी मलावर
				1421/2/1	निजी	सिधित	0.010	ममता पत्नि राजेंद्र कुमार महाजन निवासी ब्यावरा
				1420/1/1	निजी	सिधित	0.010	बृजमोहन आ० रामप्रसाद निवासी ग्राम
				1417/1/2/ 1	निजी	सिधित	0.019	रामचरण आ० दरयाव सिंह निवासी ग्राम
				1417/1/2/ 2	निजी	सिधित	0.019	दिनेश आ. रामचरण निवासी ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1417/2/2	निजी	सिंचित	0.012	सुखराम आ. इसरलाल निवासी ग्राम
				1417/3/1	निजी	सिंचित	0.010	अनोखीलाल, सीताराम आ. हरिप्रसाद निवासी ग्राम
				1417/3/2	निजी	सिंचित	0.010	नीलमसिंह पत्नि भानूप्रतापसिंह निवासी ब्यावरा
				1416	निजी	सिंचित	0.050	अशोक त्रिपाठी आ. बाबूलाल, श्रीमति गीता पत्नि अशोक त्रिपाठी निवासी ब्यावरा
				1414/1	निजी	सिंचित	0.090	भागीरथ, नारायण, रामप्रसाद आ. शंभू कंचनबाई बेवा शंभू निवासी ग्राम
				1414/2	निजी	सिंचित	0.070	राजेश, राकेश आ. ब्रदीलाल, सेवबाई बेवा ब्रदीलाल, भवरीबाई बेवा जगन्नाथ निवासी ग्राम
				1411/1	निजी	सिंचित	0.075	यासामिन बानो पत्नि जाहिद अली निवासी ब्यावरा
				1411/2	निजी	सिंचित	0.075	प्रेमनारायण आ. हजारीलाल निवासी आमल्या हाट
				676/1	निजी	असिंचित	0.011	श्यामलाल आ. जगन्नाथ दागी खजूरिया
				676/2	निजी	असिंचित	0.006	कृष्णाबाई पत्नि रामस्वरूप बाहाम्ण खजूरिया
				676/3	निजी	असिंचित	0.006	कालुराम आ. श्री रामजी महाजन निवासी सुनेल जिला झालादाड
				676/4	निजी	असिंचित	0.006	जयनारायण आ. मांगीलाल महाजन निवासी सोनखेडा
				676/5	निजी	असिंचित	0.012	सावत्री बाई पुत्री धासीराम ब्राम्हण निवासी नरसिंहगढ़
				676/6	निजी	असिंचित	0.006	विमलेश पत्नि विश्वनाथ सिंह भदोरिया निवासी राजगढ़
				676/7	निजी	असिंचित	0.006	अमित कुमार आ. नवल किशोर विश्वास जाति नमोशुद्र निवासी वारवां
				676/8	निजी	असिंचित	0.006	शाजदेबी पत्नि अब्दुल जलील जाति मुसलमान निवासी नरसिंहगढ़
				676/9	निजी	असिंचित	0.012	लक्ष्मीचंद्र रमेशचंद्र आ. जगन्नाथ जाति तेली निवासी ग्राम
				676/10	निजी	असिंचित	0.012	बलबहादुर सिंह आ. ऊंकार सिंह जाति राजपूत निवासी नरसिंहगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				676/11/1	निजी	असिंचित	0.006	शिवचरण आ. किशनलाल दांगी निवासी खजूरिया
				676/12	निजी	असिंचित	0.006	मुन्नीबाई पत्नि लखनलाल जाति दर्जी निवासी ब्यावरा
				676/13	निजी	असिंचित	0.006	रमेशचंद्रआ. लक्ष्मीचंद्र, केशरसिंह आ. रामनारायण जाति धाकड़ निवासी जमुनिया
				676/16	निजी	असिंचित	0.011	सूरजपाल सिंह आ. भेरू सिंह राजपूत निवासी ब्यावरा
				676/17/1	निजी	सिंचित	0.062	गोकुलप्रसाद आ. कर्वरलाल चंदरलाल आ. कालूराम दांगी निवासी ग्राम
				676/17/2	निजी	असिंचित	0.006	संतोष बाई पत्नि शिवकुमार माली निवासी ब्यावरा
				676/17/4	निजी	असिंचित	0.006	प्रमोद कुमार आ. शंभूलाल गौतम जाति दोहरे निवासी आमलिया हाट
				676/17/5	निजी	असिंचित	0.006	ग्यारसीबाई पत्नि श्रीकृष्ण निवासी म्लावर, ललिताबाई पत्नि धरमवीर शिवहरे निवासी छिलोदरा जिला शिवपुरी
				676/17/6	निजी	असिंचित	0.006	देवेन्द्र नाबालिक आ. जगदीश सरपरथ कौशल्याबाई बेवा जगदीश जाति तेली निवासी ग्राम
				676/17/7	निजी	असिंचित	0.006	पदमाबाई उर्फ मीना पत्नि रमेशचंद्र गुप्ता निवासी ब्यावरा
				676/17/8	निजी	असिंचित	0.006	रामस्वरूप आ. हीरालाल, रामसिंह आ. मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी जमुनिया
				676/17/9	निजी	असिंचित	0.006	चंदाबाई पत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी ब्यावरा
				676/17/10	निजी	असिंचित	0.006	मूलचंद्र आ. गिरधारीलाल खाती नि.ग्रा
				676/17/3	निजी	असिंचित	0.012	जगदीश आ. धनसिंह लोधा निवासी पीपल्या तहसील चाचौडा
				676/15	निजी	असिंचित	0.007	अविनाश कुमार पिता यू.एस.खरे जाति कायस्थ निवासी ब्यावरा
				676/14/1	निजी	असिंचित	0.007	सुर्यकान्त पिता प्रतापनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ब्यावरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				676/11/2	निजी	असिंचित	0.006	बद्रीलाल पिता मांगीलाल राजेश पिता कैलाश जाति धोवी निवासी मोरचाखेडी
				676/17/1 1	निजी	असिंचित	0.006	कन्हैयालाल पिता प्रभूलाल जाति गूजर निवासी जरकड़ियाखेडी
				676/17/1 2	निजी	असिंचित	0.006	बद्रीलाल पिता हरिशंकर जाति दांगी निवासी धुरला
				676/17/1 3	निजी	असिंचित	0.012	श्यामलाल पिता कंवरलाल मेवाडे जाति मोई निवासी मुल्तानपुरा
				669/1	निजी	असिंचित	0.024	शब्बीर हुसैन पिता अब्बास हुसैन जाति बोहरा निवासी ब्यावरा
				669/3	निजी	असिंचित	0.020	शब्बीर हुसैन पिता अब्बास हुसैन जाति बोहरा निवासी ब्यावरा
				669/13	निजी	असिंचित	0.011	धापूबाई पत्नि धीसालाल जाति दांगी निवासी खेजडाभीना
				669/4	निजी	असिंचित	0.023	प्रभूलाल आ. मानसिंह धाकड़, राजेंद्र प्रसाद आ. जमुनालाल बाहमण निवासी ब्यावरा
				669/9	निजी	असिंचित	0.007	रोडीबाई पत्नि बनेसिंह निवासी आमल्याहाट
				669/7	निजी	असिंचित	0.011	अनारबाई पत्नि हजारीलाल निवासी भूरा
				669/5	निजी	असिंचित	0.087	महेन्द्र सिंह आ. गोपाल सिंह गुर्जर निवासी मजराआदर्श तह. जिला भिण्ड
				668/1/2	निजी	असिंचित	0.060	भारत भूषण आ. हरिशचंद्र कसेरा
				668/1/1	निजी	असिंचित	0.160	आशादेवी पत्नि डा. योगेन्द्र कुमार जाति कसेरा निवासी ब्यावरा
				661/3	निजी	असिंचित	0.054	क्राईस्ट कालेज द्वारा क्राईस्ट एकेडमिक एण्ड एज्युकेशन सोसायटी द्वारा अध्यक्ष सुशील प्रसाद पिता बी.डी.वी प्रसाद जाति इसाई निवासी ग्राम
				661/1	निजी	असिंचित	0.076	एस के सलूजा पिता एस एल सलूजा, कन्हैयालाल पिता कंवरलाल जाति धाकड़, अशोक कुमार सिंह पिता विश्वनाथ सिंह जाति राजपूत, विवेक वर्धन आ. पी.सी.मिश्रा निवासी ब्यावरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				660/2	निजी	असिंचित	0.055	क्राईस्ट कालेज द्वारा क्राईस्ट एकेडमिक एण्ड एज्युकेशन सोसायटी द्वारा अध्यक्ष सुशील प्रसाद पिता बी.डी.व्ही प्रसाद जाति ईसाई निवासी ग्राम
				661/2	निजी	असिंचित	0.015	सुशील प्रसाद आ. बी.डी.व्ही प्रसाद जाति ईसाई निवासी ब्यावरा
				661/4	निजी	असिंचित	0.011	श्रीमति अल्का प्रसाद पत्नि सुशील प्रसाद जाति ईसाई निवासी ब्यावरा
				660/1/1	निजी	असिंचित	0.039	गोमटेश फार्म एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि द्वारा मनमोहन आ. शांतिचंद्र चंडक जाति महाजन निवासी ब्यावरा
12	राजगढ़	ब्यावरा	बालापुर	33	निजी	सिंचित	0.030	कैलाशचंद्र पिता प्रेमनारायण सोनी नि. ब्यावरा
				32/1/1/1	निजी	सिंचित	0.030	वल्लभदास आ.मिश्रीलाल पाराशर
				32/1/1/2	निजी	सिंचित	0.030	भंवरलाल शिवनारायण पिता हरीप्रसाद खाती नि० कचनारिया
				32/1/2	निजी	सिंचित	0.030	ओमप्रकाश आ. वल्लभदास
				32/2	निजी	सिंचित	0.030	हस्तिओम, ओमप्रकाश आ. नारायण प्रसाद विजयवर्गीय ब्यावरा
				32/3/1	निजी	सिंचित	0.030	ओमप्रकाश आ. नारायणप्रसाद जाति विजयवर्गीय
				32/3/2	निजी	सिंचित	0.030	पूनम पत्नि विपिन विजयवर्गीय नि० ब्यावरा
				31/1	निजी	सिंचित	0.010	मानूप्रताप आ. हरलाल नि० शिवपुरी
				31/2	निजी	सिंचित	0.010	वल्लभदास आ. मिश्रीलाल पाराशर
13	राजगढ़	ब्यावरा	मुल्तानपुरा	220/2/47	निजी	असिंचित	0.008	रामप्रसाद आ. देवीराम साहू निवासी कचनारिया
				220/2/33/3	निजी	असिंचित	0.004	कमलाबाई पत्नि रामदयाल शर्मा निवासी सीलखेडा
				220/2/35	निजी	असिंचित	0.004	लक्ष्मीनारायण आ. चुन्नीलाल गुप्ता
				220/2/34	निजी	असिंचित	0.004	सुनील कुमार आ. लक्ष्मीचंद्र गुप्ता
				220/2/39	निजी	असिंचित	0.004	अमृतलाल आ. देवीराम दांगी निवासी गेहूखेडी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				220/2/40	निजी	असिंचित	0.004	गोविंद आ. गंगाधर जाति खाती निवासी निपानिया गढी
				220/2/41	निजी	असिंचित	0.004	शिवचरण आ. गोरेलाल खाती निपानिया गढी
				220/2/43	निजी	असिंचित	0.004	रखत खा आ. सोकत खा निवासी ब्यावरा
				220/2/44	निजी	असिंचित	0.004	रुकमनी पुत्री किशोर सिंह खिची निवासी राजगढ
				220/2/45	निजी	असिंचित	0.008	अक्षय कुमार आ. रमेशचंद्र जाति भील निवासी राजगढ
				220/2/53	निजी	असिंचित	0.004	ज्योति पत्नि विशाल चौरासिया निवासी ब्यावरा
				220/2/54	निजी	असिंचित	0.004	कन्हैया आ. गुलाब चंद साहू निवासी बोंरा राजस्थान
				220/2/55	निजी	असिंचित	0.008	किशोरीबाई बेवा लालूराम मेवाडे निवासी नरसिंहगढ
				220/2/2/5 8	निजी	असिंचित	0.007	राकेश आ. रामस्वरूप मेवाडे निवासी राजगढ
				220/2/74	निजी	असिंचित	0.004	मानकुवर पत्नि राजेद्र सिंह राठौर
				220/2/76	निजी	असिंचित	0.008	बाबूलाल आ. लालूजी बोदनिया निवासी राजगढ
				220/2/79	निजी	असिंचित	0.004	रेशमबाई पत्नि फूलसिंह यादव निवासी मुल्तानपुरा
				220/2/78	निजी	असिंचित	0.008	सोखत खा आ. मो असद खा निवासी ब्यावरा
				220/2/36	निजी	असिंचित	0.008	पवन कुमार आ. कृष्णमोहन शर्मा निवासी सोनकच्छ
				220/2/33/ 4	निजी	असिंचित	0.004	रामचरण आ. मदनलाल दांगी निवासी खजूरिया
				220/2/37	निजी	असिंचित	0.008	इशत्याक मोह. आ. मुस्ताक मोहम्मद निवासी ब्यावरा
				220/2/56	निजी	असिंचित	0.004	रमेश चंद्र आ. मांगीलाल शर्मा निवासी देवखेडी
				220/2/48	निजी	असिंचित	0.012	राधारमण आ. नारायण बक्श विजयवर्गीय निवासी राजगढ
				220/2/8/1	निजी	असिंचित	0.004	कमलादेवी पत्नि टीकाराम शर्मा निवासी ब्यावरा
				220/2/71	निजी	असिंचित	0.008	निर्मला पत्नि श्यामसुंदर विजयवर्गीय निवासी राजगढ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				220/2/18/11	निजी	असिंचित	0.004	पवित्रा पत्नि रामदयाल खाती निवासी मुल्तानपुरा
				220/2/33/1	निजी	असिंचित	0.004	ईमरान खान आ. शेर खान निवासी ब्यावरा
				220/2/33/2	निजी	असिंचित	0.004	धर्मराज सिंह आ. जे.एस. परमार
				220/2/6 मे से	निजी	असिंचित	0.012	हरिकृष्ण मित्तल आ. धीसालाल जाति महाजन निवासी ब्यावरा
				220/2/33/5	निजी	असिंचित	0.004	प्रमनारायण आ. धीसालाल दांगी
				220/2/3/6	निजी	असिंचित	0.004	पुष्पोत्तम कुरमी आ. कन्हैयालाल कुरमी
				220/2/27	निजी	असिंचित	0.005	रमेशचंद्र आ. हजारीलाल निवासी कच्छनारिया
14	राजगढ़	ब्यावरा	तलाबडा उर्फ घम्पापुर	162/4/4	निजी	सिंचित	0.030	ओमप्रकाश पिता नारायण प्रसाद जाति महाजन
				162/4/2	निजी	सिंचित	0.060	पवित्रा देवी पत्नि बाबूलाल, रुकमणि देवी पत्नि रामबाबू पालीवाल
				159/3	निजी	सिंचित	0.054	शिवनारायण आ. छोटेताल महाजन निवासी ब्यावरा
				159/6	निजी	सिंचित	0.010	कैलाश आ. नंदकिशोर पंचाल निवासी ब्यावरा
				159/2	निजी	सिंचित	0.050	रामकिशन आ. मुलकराज, जसविंदर गुरप्रीत आ. सुरेंद्र सिंह गुरुचरण कौर बेवा सुरेंद्र सिंह पंजाबी निवासी ब्यावरा
				169/3 169/2 169/1	निजी	सिंचित	0.230	भारती बेवा श्यामलाल शारू पिता श्यामलाल समझूम आ. श्यामलाल
				168	निजी	सिंचित	0.150	म.प्र पर्यटन विभाग
				161/10/1	निजी	सिंचित	0.016	संजय विजय विनय आ. गोर्वधनलाल, मनोरमा देवी बेवा गोर्वधनलाल
				161/10/2	निजी	सिंचित	0.016	श्रीलाल आ. छोटेताल
				161/10/3	निजी	सिंचित	0.016	बाबूलाल आ. छोटेताल
				161/4	निजी	सिंचित	0.012	रामकुवर पत्नि मोहनलाल चमार निवासी बागोरी
				161/8	निजी	सिंचित	0.013	श्यामबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पति गिरजाशंकर वाजपेयी निवासी भोपाल, जीतेंद्र कुमार राजेन्द्र कुमार आ. विद्याधर शुक्ला निवासी ब्यावरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				161/5	निजी	सिंचित	0.016	जीतेंद्र सिंह आ. चंद्रमानसिंह
				161/7	निजी	सिंचित	0.022	विष्णु प्रसाद आ. रंगलाल दांगी
				161/15 161/16	निजी	असिंचित	0.007	शिवनारायण आ. रामप्रसाद दागी
				161/11	निजी	असिंचित	0.015	हरमीत सिंह आ. शमशेर सिंह निवासी ब्यावरा
				161/13	निजी	असिंचित	0.004	बाबूलाल आ. रामनारायण खाती निवासी कचनारिया
				161/12	निजी	असिंचित	0.003	बिंदाबाई पुत्री जगन्नाथ खाती निवासी कचनारिया
				161/1 161/14	निजी	असिंचित	0.015	विजय लक्ष्मी पत्नि विष्णु प्रसाद दांगी
				161/2	निजी	असिंचित	0.009	प्रशांत आ. मुरलीप्रसाद कायस्थ निवासी ब्यावरा
				161/3	निजी	असिंचित	0.006	मोहनबाई बेवा नारायण प्रसाद कायस्थ निवासी ब्यावरा
				161/6	निजी	असिंचित	0.013	मनोज आ. कनैराम कोली
				161/9	निजी	असिंचित	0.073	रामचंद्र कमलाबाई भगवती बाई पिता बाबूलाल, गंगाप्रसाद श्रीलाल पवित्रा पिता बद्रीलाल गंलकंद बाई बेवा बद्रीलाल करतूरी बाई बेवा बापूलाल जाति दांगी निवासी पडोलिया
				159/1	निजी	असिंचित	0.009	रत्नलाल आ. शिवनारायण जाति नाई निवासी पडोलिया

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/24/2010-एनएचडीपी-IVए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2013

S.O. 2(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2608 (E) dated 21.11.2011 published in Gazette of India, Extraordinary, part-II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act.) the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 12 on the stretch of land from Km. 400.100 to Km. 421.775 (Bhopal-Biaora Section) in the district of Rajgarh in the state of Madhya Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Peoples Samachar, Biaora" dated 28/01/2012 and "Patrika, Biaora" dated 26/01/2012, under subsection (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declare that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 400.100 to Km 421.775 (Bhopal- Biaora Section) on the National Highway No. 12 in the State of Madhya Pradesh.

Sr. n o.	Name of the District	Name of the Taluk	Name of Village	Survey number	Type	Nature	Area in Hectare s	Name of Owners/interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
1	Raj Garh	Biaora	Motipura	424	Private	Irrigated	0.800	Chhotelal s/o Prabhulal Cast Ahir res. Achalpur Teh. Narsinghgarh
				373	Private	Irrigated	1.680	Ramcharan, Ratanlal Onkar , Rambagas, Laljiram, Hazarilal s/o Mangilal Cast Dangi res. Village
				342/1	Private	Irrigated	0.330	Ramcharan, Ratanlal Onkar , Rambagas, Laljiram, Hazarilal s/o Mangilal Cast Dangi res. Village
				364/3	Private	Irrigated	0.240	Chhabilal s/o Chain Singh Cast Dangi res. Village
				364/2	Private	Irrigated	0.370	Dulichandra S/o Chenaji singh dangi res. Village
				364/1	Private	Irrigated	0.200	Heralal s/o Chenaji Cast Dangi res.
				355/2	Private	Irrigated	0.220	Janki Bai w/o Devkishan Cast Dangi res. Village
				353/2	Private	Irrigated	0.100	Mohanlal s/o Gangadhar Cast Dangi res. Village
				353/1	Private	Irrigated	0.120	Mohanlal s/o Gangadhar Cast Dangi res. Village
				352/2	Private	Irrigated	0.230	Mangilal s/o Chenaji Cast Dangi res. Village
				351	Private	Irrigated	0.250	Hajarilal s/o Ramlal Cast Dangi res. Village
				350	Private	Irrigated	0.350	Hajarilal s/o Ramlal Cast Dangi res. Village
				348	Private	Irrigated	0.320	Hajarilal s/o Ramlal Cast Dangi res. Village
				347	Private	Irrigated	0.320	Hajarilal s/o Ramlal Cast Dangi res. Village
				342/3/3	Private	Irrigated	0.100	Shrilal s/o Baijnath Cast Dangi res. Village
				342/3/1	Private	Irrigated	0.100	Shrilal s/o Baijnath Cast Dangi res. Village
				342/3/2/1	Private	Irrigated	0.100	Purushottam s/o Bhagirath Cast Dangi res. Village

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				342/3/2/2	Private	Irrigated	0.020	Purushottam s/o Bhagirath Cast Dangi res. Village
				342/2/2	Private	Irrigated	0.250	Jagdish s/o Kaluram Dangi, res. village
				342/2/1	Private	Irrigated	0.250	Rameshwar S/o Kalluram res. Village
				340	Private	Irrigated	0.450	Bhawarlal s/o Deviram res. Village
				344/2	Private	Irrigated	0.090	Chhama Bai widow Ramkishan, Dinesh s/o Ramkishan Cast Dangi
				344/1	Private	Irrigated	0.170	Radheshyam s/o. Deviram Mukesh, Vishnu s/o Ramkishan, Sulki Bai d/o Ramkishan Cast dangi res. Village
				355/1	Private	Irrigated	0.300	Devkishan s/o Jagannath Cast Dangi Res. Village
2	Raj Garh	Biaora	Kolukhedi	201/1	Private	Irrigated	0.070	Kanaihalal s/o Bhagirath Cast Ahir
				198	Private	Irrigated	0.570	Vijay Singh s/o Prabhulal Cast Ahir
				192/1/1	Private	Irrigated	0.320	Radhyeshyam S/o Kawarlal Dangi
				191	Private	Irrigated	0.230	Bhawar lal Jaganath Gordhan S/o Girdhari, Mangibai Widow Girdhari Deviram S/o Shankar lal, Navibai widow Ghisa
				190/1	Private	Irrigated	0.235	Ganga Ram s/o Bhawarlal Cast Ahir
				190/2	Private	Irrigated	0.235	Kallu ram S/o Bhawarlal
				189	Private	Irrigated	0.500	Gangaram s/o Jagannath Cast Dangi
				187	Private	Irrigated	0.570	Shivnarayan, Devisingh, Gangaram, Kalluram S/o Kishanlal, Booli widow Kishanlal Dhangl
3	Raj Garh	Biaora	Kharediyakalan	311/1	Private	Irrigated	0.010	Narayani bai w/o Phool Singh Cast Ahir
				311/2	Private	Irrigated	0.377	Bhairosingh S/o Samadar singh Gorabai W/o Samandar singh
				306	Private	Irrigated	0.514	Ramcharan Prahlad s/o Laxmichand Gordhan s/o Pannalal Cast Brahman Gram Choki
				305/2	Private	Irrigated	0.061	Brijendra Singh s/o Narendra Singh Cast Gujar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				308/1	Private	Irrigated	0.100	Jagannath, Heeralal S/o Gulab Singh, Prahlad, Banesingh Ramcharan S/o Devchand Ramkali widow devchand Hazarilal Balram S/o Daulat ram Prembai D/o Daulat ram Bhavribai D/o Daulat ram land owner
				308/2	Private	Irrigated	0.061	Jagannath, Heeralal S/o Gulab Singh, Prahlad, Banesingh Ramcharan S/o Devchand Ramkali widow devchand Hazarilal Balram S/o Daulat ram Prembai D/o Daulat ram Bhavribai D/o Daulat ram land owner
4	Raj Garh	Biaora	Pagari	219	Private	Irrigated	0.110	Ramcharan s/o Harinarayan Cast Brahman Res. Sonkuchh Teh. Narsingarh
				218	Private	Irrigated	0.730	Bhagwansingh s/o Nawal Singh Cast Rajput
				214/4	Private	Irrigated	0.170	Narayan s/o Gopilal Cast dangi
				214/3	Private	Irrigated	0.068	Ratanlal s/o Ranglal caste dangi Res. Amaliya hat
				214/2	Private	Irrigated	0.080	Prabhulal S/o Ranglal caste dangi Res. Amaliya hat
				214/1	Private	Irrigated	0.080	Kanhiyalal S/o Ranglal caste dangi Res. Amaliya hat
				213	Private	Irrigated	0.100	Devchand s/o Ratanlal caste dangi
				209/1	Private	Irrigated	0.070	Roop Singh s/o Nawal Singh caste Rajput
				208	Private	Irrigated	0.506	Roop Singh s/o Nawal Singh Caste Rajput
				209/2	Private	Irrigated	0.230	Kaluram Ramprasad s/o Ghisalal, Cast Dangl Res. Amaliya hat
				203/2	Private	Irrigated	0.126	Dilip Singh s/o Dhrapasingh caste Rajput
				202	Private	Irrigated	0.759	Ranjit Singh s/o Nawal Singh Caste Rajput
				200/2	Private	Irrigated	0.560	Tawar Singh s/o Jalam Singh caste Rajput
				199/1	Private	Irrigated	0.230	Tawar Singh s/o Jalam Singh Caste Rajput
				199/2	Private	Irrigated	0.470	Babulal s/o Jalam Singh caste Rajput
				197/1	Private	Irrigated	0.220	Jagdish Singh S/o Lalsingh caste Rajput
				197/2	Private	Irrigated	0.270	Sajansingh S/o Madansingh caste Rajput
				197/3	Private	Irrigated	0.210	Banesingh s/o Sardar Singh, Shvisingh, Sampatbai D/o Sardar Singh caste Rajput

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				197/4/1	Private	Irrigated	0.090	Devisingh s/o Modsingh, Kanchanbai Widow Modsingh caste Rajput
				197/4/2	Private	Irrigated	0.110	Kesarsingh S/o Modsingh, Kanchanbai Widow Modsingh caste Rajput
				198	Private	Irrigated	0.430	Ganpat Singh s/o Jalam Singh Cast Rajput
				223	Private	Irrigated	0.202	Gopal Singh S/o Shivrajsingh caste Rajput
				227	Private	Irrigated	0.081	Gopal Singh S/o Shivrajsingh caste Rajput
				228	Private	Irrigated	0.110	Bajrangj Singh s/o Shivraj Singh
				237	Private	Irrigated	0.075	Shivraj Singh s/o Parvat Singh
				238	Private	Irrigated	0.060	Jalam Singh s/o Ram Singh
				298/238	Private	Irrigated	0.063	Bhagwatsingh S/o Navalsingh
				239	Private	Irrigated	0.061	Jalam Singh s/o Ram Singh
				240	Private	Irrigated	0.010	Babul Singh S/o Jalam Singh
				299/239	Private	Irrigated	0.089	Babul Singh S/o Jalam Singh
				243	Private	Irrigated	0.037	Bajrang Singh s/o Shivraj Singh
				192	Private	Irrigated	0.026	Banesingh, Shivsingh S/o Sardar singh, Swaroopbai D/o Sardarsingh caste Rajput Res. Village
				193	Private	Irrigated	0.037	Banesingh, Shivsingh S/o Sardar singh, Swaroopbai D/o Sardarsingh caste Rajput Res. Village
5	Raj Garh	Biaora	Lasudiyamaha raj	472/1/1	Private	Irrigated	0.375	Ramnarayan, Bhawarlal S/o Bapulal
				472/1/2	Private	Irrigated	0.200	Rugnath S/o Salagram
				472/3	Private	Irrigated	0.020	Sadhna W/o Hemantsingh Sisodiya
				472/2	Private	Irrigated	0.020	Mohanlal S/o Kanhiyalal
				472/4	Private	Irrigated	0.020	Gairasibai W/o Kanhiyalal
				472/5	Private	Irrigated	0.022	Gokul prasad S/o Bansilal
				472/6	Private	Irrigated	0.021	Badrilal S/o Harlal
				472/7	Private	Irrigated	0.005	Ratanlal S/o Kishanlal
				472/8	Private	Irrigated	0.017	Dhanilal S/o Shrilal
				471	Private	Irrigated	0.440	Kailashnarayan S/o Rambagas
				470	Private	Irrigated	0.120	Mangilal S/o Deviram
				469/2	Private	Irrigated	0.070	Bhagirath S/o Gopilal
				469/1/1	Private	Irrigated	0.020	Kailash S/o Shankarlal
				469/1/2	Private	Irrigated	0.040	Sitaram S/o Mangilal
				468/1/1	Private	Irrigated	0.050	Kaluram S/o Ranglal
				468/1/2	Private	Irrigated	0.045	Kavarilal S/o Ranglal
				468/2	Private	Irrigated	0.095	Premnarayan, Vishu Rambabu S/o Heeralal, Dhapuabai Widow Heeralal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				467/1	Private	Irrigated	0.200	Narsangal S/o Rama
				467/2	Private	Irrigated	0.270	Devchandra S/o Gopilal, Sundrabai Widow Gopilal
				466/2/1	Private	Irrigated	0.213	Bhawarlal S/o Salagram
				466/2/2	Private	Irrigated	0.212	Ramratan S/o Salagram
				466/1	Private	Irrigated	0.360	Radhakishan S/o Deviram
				465/1	Private	Irrigated	0.200	Nathulal S/o Daula
				465/2	Private	Irrigated	0.140	Pannalal S/o Daula
				464/3	Private	Irrigated	0.340	Ramnarayan S/o Jagannath
				464/2	Private	Irrigated	0.350	Harlal S/o Jagannath
				464/1/1	Private	Irrigated	0.100	Rameshwar, Jagdish S/o Gowardhan, Gangabai Widow Gowardhan
				464/1/2	Private	Irrigated	0.130	Amarsingh S/o Madanlal
				463	Private	Irrigated	0.185	Mangilal S/o Jagannath
				462	Private	Irrigated	0.090	Rambagas S/o Babar
				461/1/2	Private	Irrigated	0.020	Ramcharan S/o Mangilal
				461/2/2	Private	Irrigated	0.020	Jagdish S/o Mangilal
				459/1	Private	Irrigated	0.090	Badrilal S/o Rambagas
				458	Private	Irrigated	0.090	Harlal S/o Jagannath
				457/3	Private	Irrigated	0.100	Geetabai W/o Badrilal
				457/2/1	Private	Irrigated	0.040	Jagdish S/o Nandram
				457/2/2	Private	Irrigated	0.040	Omprakash S/o Nandram
				457/2/3	Private	Irrigated	0.040	Cheetalal S/o Nandram
				457/1	Private	Irrigated	0.120	Laljiram S/o Ramlal
				456/1	Private	Irrigated	0.075	Premnarayan S/o Madanlal
				456/4	Private	Irrigated	0.075	Ranglal S/o Madanlal
				455/1	Private	Irrigated	0.265	Shivprasad S/o Ramlal
				456/2	Private	Irrigated	0.070	Rambabu S/o Madalal
				456/3	Private	Irrigated	0.070	Vishnuprasad S/o Madalal
				455/2	Private	Irrigated	0.265	Shrilal, Motilal S/o Parthi
				481	Private	Irrigated	0.020	Prembai S/o Gulab Bansilal S/o
				477/1	Private	Irrigated	0.010	Balprasad S/o Mangilal
				485	Private	Irrigated	0.190	Annarbai W/o Ganeshram
				486	Private	Irrigated	0.230	Ramchandra S/o Heeralal
				487	Private	Irrigated	0.210	Heeralal S/o Mandanlal
				488	Private	Irrigated	0.130	Mangilal S/o Jagannath

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				489/1	Private	Irrigated	0.055	Devchandra S/o Kalu
				489/2	Private	Irrigated	0.055	Tularam S/o Nathu
				709/490 710/490	Private	Irrigated	0.045	Tularam S/o Nathu,
				630/490	Private	Irrigated	0.072	Devchandra S/o Kallu, Shushilabai Widow kallu
				496/1	Private	Irrigated	0.096	Suresh kumar S/o Shambu singh
				496/2	Private	Irrigated	0.004	Suresh kumar S/o Shambu singh
				497	Private	Irrigated	0.130	Radhyeshyam S/o Mangilal
				498	Private	Irrigated	0.100	Radhyeshyam S/o Mangilal
				461/1/1	Private	Irrigated	0.120	Radhyeshyam S/o Mangilal
				500/1	Private	Irrigated	0.225	Mohanlal S/o Prabhulal
				500/2	Private	Irrigated	0.225	Hariprasad S/o Prabhulal
				451/1	Private	Irrigated	0.160	Premnarayan S/o Badrilal
				451/2	Private	Irrigated	0.165	Hariprasad S/o Badrilal
				450	Private	Irrigated	0.160	Ramnarayan S/o Jagannath
				449/1	Private	Irrigated	0.165	Mukush S/o Gowardhan
				449/2	Private	Irrigated	0.165	Motilal S/o Devilal
				448/1	Private	Irrigated	0.060	Gangaram S/o Babar
				448/2	Private	Irrigated	0.120	Rakesh, Suresh minor S/o Devchandra, Guardian Heeralal S/o Devchandra Guardian, Shantibai widow Devchandra etc
				447/1	Private	Irrigated	0.045	Shrilal, Motilal S/o Parmilal
				447/2/1	Private	Irrigated	0.025	Ramesh, Ramchandra, Harinarayan S/o Nathulal
				447/2/2	Private	Irrigated	0.020	Daulatram, Ramprasad S/o Bhawarlal
				461/2/1	Private	Irrigated	0.010	Ramcharan S/o Mangilal
				446/1	Private	Irrigated	0.010	Balram S/o Devram
				490/1	Private	Irrigated	0.020	Devchandra S/o Kalluram
				490/2	Private	Irrigated	0.015	Tullaram S/o Nathu
				490/3	Private	Irrigated	0.015	Tullaram S/o Nathu
6	Raj Garh	Biaora	Banraba	1151/1/3	Private	Irrigated	0.063	Kailash Narayan S/o Bapulal
				1151/1/2	Private	Irrigated	0.127	Kailash Narayan S/o Bapulal Caste Dangi Res. Lasudiya Maharaj
				1151/1/1	Private	Irrigated	0.010	Bapulal S/o Devilal, Jagdish Rambabu S/o Kanhiyalal Caste dangi res. Lasudiya Maharaj
				1137/3	Private	Irrigated	0.180	Geetabai W/o Gokul singh Dangi
				1137/2	Private	Irrigated	0.170	Santosh Kumar s/o Mangilal Cast dangi
				1137/1	Private	Irrigated	0.220	Santosh Kumar s/o Mangilal Cast dangi
				1138	Private	Irrigated	0.450	Shri Ram Janki Mandir Manager Collector
				1116	Private	Irrigated	0.120	Ramcharan S/o Bhawarsingh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				1114/2/1	Private	Irrigated	0.010	Jagdish, Bhagwatprasad, pappu S/o Radhyeshyam, lilabai Radhyeshyam
				1114/2/2	Private	Irrigated	0.410	Gangaram S/o Baldev, Santosh kumar S/o Mangilal
				1086	Private	Irrigated	0.140	Jagdish S/o Radhyeshyam Sahu
				1087	Private	Irrigated	0.260	Jagdish S/o Radhyeshyam Sahu
				1088/1/1	Private	Irrigated	0.240	Dhulji S/o Ramlal
				1088/1/2	Private	Irrigated	0.300	Deva S/o Ramlal
				1088/1/3	Private	Irrigated	0.400	Ramcharan, Babulal, Badriprasad, Kailash S/o Madanlal
				1090	Private	Irrigated	0.450	Mansingh, Madan, Ramprasad S/o Gangadhar
				1094/1/1	Private	Irrigated	0.130	Dhapubai W/o Rambagas
				1094/1/2	Private	Irrigated	0.130	Omprakash S/o Motilal
				1094/1/3	Private	Irrigated	0.060	Shantibai W/o Gangaprasad
				1094/2/2	Private	Irrigated	0.100	Rameshwar, Chunnilal S/o Rambagas
				1094/3	Private	Irrigated	0.120	Ramnarayan S/o Cheetaram
				1095	Private	Irrigated	0.250	Rambagas S/o Ghisaram
				209/1/1/1	Private	Irrigated	0.292	Mangilal, Shival S/o Banshilal
				209/1/1/2	Private	Irrigated	0.008	Mangilal, Shival S/o Banshilal
				209/2	Private	Irrigated	0.042	Dinesh kumar S/o Shival caste Dangi Res. Village
				83	Private	Irrigated	0.110	Dinesh kumar S/o Shival
				82/1	Private	Irrigated	0.300	Ramcharan S/o Devilal
				82/2	Private	Irrigated	0.300	Ghisalal S/o Devilal
				67	Private	Irrigated	0.430	Ramcharan, Shivprasad S/o Madanlal Dangi
				84/5	Private	Irrigated	0.030	Gangaram S/o Ranglal Caste Dangi Res. Village
				77/2	Private	Irrigated	0.060	Chandarlal S/o Hajarilal, Shantibai widow Hajarilal
				75/1	Private	Irrigated	0.010	Ramcharan S/o Deviram Caste Dangi
				75/2	Private	Irrigated	0.010	Bhagirath S/o Badrilal Caste Dangi
				1140/2	Private	Irrigated	0.010	Gangaram S/o Jagannath Caste Dangi
				1140/3	Private	Irrigated	0.010	Gopal minor S/o Amarsingh Guardian Amarsingh S/o Maansingh Caste Dangi
				1149	Private	Irrigated	0.090	Rameshwar, Jagdish prasad S/o Gordhan
				1140/1	Private	Irrigated	0.050	Ranglal S/o Deva Dangi
				1108	Private	Irrigated	0.010	Mansingh, Madanlal, Ramprasad S/o Gangadhar
				1107	Private	Irrigated	0.010	Shivnarayan S/o Deva
				1103/1	Private	Irrigated	0.020	Shambhulal S/o Kalu
				1103/2	Private	Irrigated	0.020	Rambagas S/o Kalu
				1100/1/1/1	Private	Irrigated	0.040	Dayaram S/o Rameshwar
				1100/1/2	Private	Irrigated	0.040	Ramnarayan S/o Isar Caste Dangi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				1099/1	Private	Irrigated	0.060	Jagdish Prasad S/o Gokulprasad
				1100/1/5	Private	Irrigated	0.040	Jagdish Prasad S/o Gokulprasad
				1100/1/1/2	Private	Irrigated	0.040	Radhyeshyam S/o Kishanlal
				1098/1	Private	Irrigated	0.035	Motilal, Rambaksh S/o Bapulal
				1098/2	Private	Irrigated	0.035	Shivprasad S/o Madanlal
				77/1/2/1	Private	Irrigated	0.020	Shivcharan S/o Gangaram
				77/1/2/2	Private	Irrigated	0.080	Gulabbai W/o Mangilal
				77/2	Private	Irrigated	0.060	Chandarlal S/o Hazarilal, Shantibai Widow Hazarilal
				75/1	Private	Irrigated	0.010	Ramcharan S/o Deviram
				75/2			0.010	Ghisalal S/o Deviram
7	Raj Garh	Biaora	Baiheda	663	Private	Irrigated	0.650	Ratanlal S/o Deva Dangi
				661/2/2	Private	Irrigated	0.200	Amritlal s/o Kanhailal Brahman
				661/2/1	Private	Irrigated	0.060	Hazarilal S/o Deviram
				660/2	Private	Irrigated	0.162	Chhama Bai w/o Laljiram Cast Dangi
				659	Private	Irrigated	0.182	Sharda Bai w/o Jagdish Prasad Shanti bai, Kanti Bai, Geeta Bai D/o Hazarilal, Murlidhar S/o Kishanlal, Laxmi Narayan, Hari Narayan S/o Jagannath caste Brahman
				657	Private	Irrigated	0.470	Sharda Bai w/o Jagdish Prasad Shanti bai, Kanti Bai, Geeta Bai D/o Hazarilal, Murlidhar S/o Kishanlal, Laxmi Narayan, Hari Narayan S/o Jagannath caste Brahman
				648/1	Private	Irrigated	0.030	Dayaram s/o Mehtav
				648/2	Private	Irrigated	0.030	Gangaram s/o Mehtav
				648/3	Private	Irrigated	0.029	Rambabu, Ghanshyam S/o Ghisalal, Rodi Bai widow Ghisalal
				647	Private	Irrigated	0.105	Devbagas Ranglal s/o Bhawarlal Dangi
				646/1	Private	Irrigated	0.154	Devbagas Ranglal s/o Bhawarlal Dangi
				645/1	Private	Irrigated	0.200	Dayaram s/o Mehtav
				645/2	Private	Irrigated	0.200	Gangaram S/o Mehtav
				645/3/1	Private	Irrigated	0.063	Rambabu S/o Gisalal
				645/3/2	Private	Irrigated	0.063	Mohan S/o Bhagwatsingh
				644	Private	Irrigated	0.340	Mandir Shriram Janki Manager Collector

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				643	Private	Irrigated	0.125	Kailash Narayan S/o Bhawarlal Dropati Bai D/o Badri lal Ranchhoddas Ramcharandas S/o Ratandas, Shivnarayan, Bhagirath, Poonamchand, Soram Bai, Kamla Bai S/o Murli Prasad, Basanti lal S/o Kanhaiyaa lal, Jaynarayan S/o Puroshottamdas, Ramprasad S/o Sewadas
				629	Private	Irrigated	0.061	Kailash Narayan S/o Bhawarlal Dropati Bai D/o Badri lal Ranchhoddas Ramcharandas S/o Ratandas, Shivnarayan, Bhagirath, Poonamchand, Soram Bai, Kamla Bai S/o Murli Prasad, Basanti lal S/o Kanhaiyaa lal, Jaynarayan S/o Puroshottamdas, Ramprasad S/o Sewadas
				628	Private	Irrigated	0.506	Mohanlal, Govind, Gopal S/o Ramlal, Geeta Bai widow Ramlal, Bablu, Vishal, Pramod Deepak S/o Shyambabu, Indra Devi widow Shyam Babu
				627	Private	Irrigated	0.300	Amritlal, Jagdish S/o Kanahiyalal, Laxminarayan, Satyanarayan S/o Jugal Kishor, Balram S/o Laxminarayan, Ghisalal S/o Satyanarayan, Sitaram S/o Ramcharan
				626	Private	Irrigated	0.030	Amritlal, Jagdish S/o Kanahiyalal, Laxminarayan, Satyanarayan S/o Jugal Kishor, Balram S/o Laxminarayan, Ghisalal S/o Satyanarayan, Sitaram S/o Ramcharan
				623	Private	Irrigated	0.135	Amritlal, Jagdish S/o Kanahiyalal, Laxminarayan, Satyanarayan S/o Jugal Kishor, Balram S/o Laxminarayan, Ghisalal S/o Satyanarayan, Sitaram S/o Ramcharan
				1000/623	Private	Irrigated	0.600	Amritlal, Jagdish S/o Kanahiyalal, Laxminarayan, Satyanarayan S/o Jugal Kishor, Balram S/o Laxminarayan, Ghisalal S/o Satyanarayan, Sitaram S/o Ramcharan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				601/1	Private	Irrigated	0.045	Mangilal S/o Bhawarji
				601/2	Private	Irrigated	0.045	Madanlal Soram Singh, Bharat Singh s/o Badrilal Rama Bai, Kailash Bai, Sardar Bai s/o Badrilal, Gulab Bai widow Badrilal
				599	Private	Irrigated	0.089	Madanlal Soram Singh, Bharat Singh s/o Badrilal Rama Bai, Kailash Bai, Sardar Bai s/o Badrilal, Gulab Bai widow Badrilal
				196	Private	Irrigated	0.437	Dayal singh Rambabu, Shanti Bai, Santosh Bai S/o Ghisalal, Bhagirath, Ramsingh S/o Prabhulal, Sardar Bai, Gyarsi Bai D/o Prabhulal, Bhajan Singh S/o Jagganath, Badrilal S/o Shyamlal, Bapulal Kedar, Hari Singh S/o Partab, Bane Singh S/o Jagdish Caste Gujar
				182/1	Private	Irrigated	0.050	LakhanSingh, Ramcharan singh S/o Amarsingh
				182/2	Private	Irrigated	0.050	Mangilal S/o Bhawarji
				182/3	Private	Irrigated	0.222	Madanlal, Bharatsingh, Sourabhsingh S/o Badrilal, Ramabai, Kailashbai, Sardarbai D/o Badrilal, Gulabbai widow of Badrilal caste Gujar
				177/1/1	Private	Irrigated	0.093	Mangilal S/o Gangaram
				177/1/2	Private	Irrigated	0.093	Kailash Narayan S/o Gangaram
				177/1/3	Private	Irrigated	0.094	Ramcharan S/o Gangaram
				175/1	Private	Irrigated	0.040	Premnarayan S/o Hazarilal
				175/2	Private	Irrigated	0.040	RambabuS/o Hazarilal
				174/1	Private	Irrigated	0.020	Badrilal S/o Hazarilal
				81	Private	Irrigated	0.105	Bhawarlal s/o Badrilal, Dayaram S/o Rambagas, Ratanlal S/o Rambagas
				82/1	Private	Irrigated	0.182	Bhawarlal s/o Badrilal, Dayaram S/o Rambagas, Ratanlal S/o Rambagas
				82/2	Private	Irrigated	0.470	Kanchan Bai w/o Ratanlal
				87	Private	Irrigated	0.400	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				93	Private	Irrigated	0.500	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				95	Private	Irrigated	0.160	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				96	Private	Irrigated	0.850	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				104	Private	Irrigated	0.500	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				105	Private	Irrigated	0.350	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				94	Private	Irrigated	0.110	Bapulal, Kashiram s/o Dewa
				97/1	Private	Irrigated	0.075	Vishuprasad S/o Deviram
				97/2	Private	Irrigated	0.075	Govindprasad S/o Deviram
				103	Private	Irrigated	0.262	Mangilal, Kanahiya lal S/o Deviram minor S/o Deviram Guradian mother Dhapu Bai widow Deviram
				106/1	Private	Irrigated	0.027	Guruprasad S/o Amarchand
				106/2	Private	Irrigated	0.026	Narayan prasad S/o Amarchand
				107/1	Private	Irrigated	0.077	Guru prasad S/o Amarchand
				107/2	Private	Irrigated	0.077	Narayan prasad S/o Amarchand
				108	Private	Irrigated	0.051	Smt. Krati Goyal W/o Geetesh Goyal
				109	Private	Irrigated	0.177	Smt. Krati Goyal W/o Geetesh Goyal
				110	Private	Irrigated	0.363	Smt. Krati Goyal W/o Geetesh Goyal
				111	Private	Irrigated	0.286	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				98	Private	Irrigated	0.030	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				113	Private	Irrigated	0.114	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				115	Private	Irrigated	0.900	Mandir Shri G. Maharaj, Manager Collector
				112	Private	Irrigated	0.089	Rameshwar S/o Jagannath, Jashoda bai Widow Jagannath
				114/1	Private	Irrigated	0.101	Kailash Narayan S/o Gopilal
				114/2	Private	Irrigated	0.101	Ghisibai W/o Badrilal
				114/3	Private	Irrigated	0.101	Shyambabu S/o Rughnath
				114/4	Private	Irrigated	0.102	Vijaysingh S/o Rughnath
				672	Private	Irrigated	0.101	Laxminarayan s/o Mangilal
				673	Private	Irrigated	0.041	Vishnuprasad s/o Jagannath
				674	Private	Irrigated	0.161	Laxminarayan, Harinarayan S/o Jagannath etc
				999/675	Private	Irrigated	0.100	Laxminarayan, Harinarayan S/o Jagannath etc
				681	Private	Irrigated	0.040	Ramcharan, Shivprasad, Hukumchandra S/o Bejnath, Ghanshyam, Omprakash S/o Badrilal, Sureshchand, Ashok, Kailash, Jagdish S/o Kunjbihari, Basanti Bai widow Kunjbihari, Gokulprasad S/o Hazarilal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				679	Private	Irrigated	0.081	Ramcharan, Shivprasad, Hukumchandra S/o Bejnath, Ghanshyam, Omprakash S/o Badrilal, Sureshchand, Ashok, Kailash, Jagdish S/o Kunjbihari, Basanti Bai widow Kunjbihari, Gokulprasad S/o Hazarilal
				183/2	Private	Irrigated	0.010	Bhawarlal S/o Badrilal, Dayaram S/o Rambagas, Ratanlal S/o Rambagas
				602	Private	Irrigated	0.010	Dayal singh, Rambabu S/o Ghisalal, Santosh Bai, Shanti Bai D/o Ghisalal, Bhagirath, Ramsingh S/o Prabhulal, Sardar Bai, Gyarsi Bai D/o Prabhulal, Bhajan Singh S/o Jagganath, Suraj Bai widow Jagganath part 34 paise Badrilal S/o Shyamlal part 32 paise, Bapulal, Kedar, Hari Singh S/o Partab, Bane Singh S/o Jagdish part 34 paise Gujar resident of village land owner
8	Raj Garh	Biaora	Lasudiyagujar	285/3	Private	Irrigated	0.050	Krishna Vallabh S/o Ghanshyam Das, Smt. Indira Widow Radha Vallabh Caste Mahajan Res. Biaora
				285/2/1	Private	Irrigated	0.205	Krishna Vallabh S/o Ghanshyam Das, Smt. Indira Widow Radha Vallabh Caste Mahajan Res. Biaora
				285/1	Private	Irrigated	0.110	Krishna Vallabh S/o Ghanshyam Das, Smt. Indira Widow Radha Vallabh Caste Mahajan Res. Biaora
				285/2/2	Private	Irrigated	0.025	Krishna Vallabh S/o Ghanshyam Das, Smt. Indira Widow Radha Vallabh Caste Mahajan Res. Biaora
				274	Private	Irrigated	0.720	Shiv lal Shankar lal S/o Devchand
				270/1/2	Private	Irrigated	0.200	Rodiya s/o Shambhu Kamla Bai D/o shambhu Nai
				270/1/3	Private	Irrigated	0.200	Gorishankar S/o Shambhulal
				270/3/1	Private	Irrigated	0.185	Ramkishan S/o Kallu
				270/3/2	Private	Irrigated	0.185	Shyambabu S/o Mangilal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				259/1	Private	Irrigated	0.225	Kesar Bai, Daulat Ram, Hari Singh, Ramkishan S/o Rambaksh, Prem Bai D/o Rambaksh, Iaxminarayan, Shivnarayan S/o Balabaks, Sheitan bai, Lilabai D/o Balabaks, Prabhubai widow Balabaks part 98 paise, Dev Singh S/o Mangilal, Ganga Bai Widow Mangilal part 2 paise Caste Dangi
				257	Private	Irrigated	0.560	Ramkishan s/o Gopilal Cast dangi
				256/1	Private	Irrigated	0.300	Krishna Vallabh Ramprasad s/o Bhawarlal Jamni Bai widow Bhawarlal Caste Dangi
				255/1	Private	Irrigated	0.030	Krishna Vallabh Ramprasad s/o Bhawarlal Jamni Bai widow Bhawarlal
				259/2/1/1	Private	Irrigated	0.112	Devi Singh s/o Mangilal, Shivil s/o Devchand
				259/2/1/2	Private	Irrigated	0.113	Surendra Singh S/o Himmat Singh Caste Thakur
				256/2	Private	Irrigated	0.250	Dev Bagas s/o Ramnarayan Bhawri Bai widow Ramnarayan
				256/3	Private	Irrigated	0.200	Shivil s/o Kaluram Caste Dangi
				256/5	Private	Irrigated	0.250	Badrilal S/o Kaluram Caste Dangi
				212/1	Private	Irrigated	0.160	Vishnu Prasad s/o Ranglal Caste Dangi
				356/212	Private	Irrigated	0.140	Hazarilal s/o Kaluram Caste Dangi
				211/1/1	Private	Irrigated	0.050	Kashiram s/o Mauzilal Dangi
				211/1/3	Private	Irrigated	0.080	Ramprasad, Premnarayan, Ramchand, Mohanlal s/o Chunnilal Dangi
				281	Private	Irrigated	0.010	Ghisalal S/o Kishanal Dangi
				280	Private	Irrigated	0.020	Ghisalal S/o Kishanal Dangi
9	Raj Garh	Blaora	Peepalhela	875	Private	Irrigated	0.860	Devilal s/o Nandram Cast Dhakad
				874/1	Private	Irrigated	0.140	Iaxmichand S/o Umedram
				874/2	Private	Irrigated	0.240	Bhaagchand S/o Salagram
				927	Private	Irrigated	0.230	Badrilal s/o Laxmichand Cast Dhakad
				918/2	Private	Irrigated	0.090	Shankarlal s/o Ramlal Cast Dhakad
				918/1	Private	Irrigated	0.060	Shivil s/o Ramlal Cast Dhakad
				916/1/1	Private	Irrigated	0.068	Ranglal S/o Sobharam
				916/1/2	Private	Irrigated	0.034	Ramnarayan S/o Shobharam
				916/2	Private	Irrigated	0.068	Sidhnath S/o Hariram
				916/3	Private	Irrigated	0.060	Sidhnath S/o Hariram
				915	Private	Irrigated	0.160	Ramgopal s/o Phoolchand Cast Dhakad
				883	Private	Irrigated	0.200	Geeta bai W/o Khemchand Nagar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				882/1	Private	Irrigated	0.038	Bharti trivedi W/o Vishnu Prasad Caste Brahmin Res. Biaora
				882/2	Private	Irrigated	0.050	Suman Bai W/o Ankur Kumar
				882/3	Private	Irrigated	0.060	Parbat Singh S/o Ram Narayan
				881/1	Private	Irrigated	0.020	Chandrakanta Devi W/o Narendra singh
				881/2	Private	Irrigated	0.020	Chandrakanta Devi W/o Narendra singh
				881/3	Private	Irrigated	0.050	Ankur kumar S/o Shivcharan
				880	Private	Irrigated	0.020	Taradevi W/o Anandilal Caste Sutar
				870/1	Private	Irrigated	0.060	Laxmichand S/o Umedram
				870/3/1	Private	Irrigated	0.030	Laxmichand S/o Umedram
				870/2	Private	Irrigated	0.060	Shyamabai W/o Rambabu
				870/3/2	Private	Irrigated	0.030	Bhaagchand S/o Salagram
10	Raj Garh	Biaora	Bhura	194	Private	Irrigated	0.160	Mangilal s/o Devchand Hazari Bai widow Devchand Caste Dangi
				192/1	Private	Irrigated	0.470	Daulatram s/o Rambaksh Caste Dangi
				192/3	Private	Irrigated	0.441	Devchand S/o Rambaksh Bhuli Bai widow Rambaksh Caste Dangi
				191	Private	Irrigated	0.139	Devchand S/o Rambaksh Bhuli Bai widow Rambaksh Caste Dangi
				175	Private	Irrigated	0.120	Ramcharan, Ramprasad, Rajaram, Radhe shyam, Laxmi Narayan S/o Amra etc, Sardar Bai, Geeta Bai, Chandrakalan Bai D/o Amar Singh
				190	Private	Irrigated	0.300	Narayan, Asharam S/o Umedram Dangi
				534/190	Private	Irrigated	0.035	Narayan, Asharam S/o Umedram Dangi
				177	Private	Irrigated	0.049	Ramcharan, Ramprasad, Rajaram, Radhe shyam, Laxmi Narayan S/o Amra etc, Sardar Bai, Geeta Bai, Chandrakalan Bai D/o Amar Singh
				179	Private	Irrigated	0.566	Bhawarlal Kanailal Madhulal s/o Ummedram Caste dangi
				168/1/1	Private	Irrigated	0.031	Saddam Hussain S/o Fazal-Ur-Rahman Muslim Res. Biaora
				168/1/2	Private	Irrigated	0.030	Narayan S/o Umedram Dangi
				167	Private	Irrigated	0.181	Narayan Asharam s/o Umed-Ram Dangi
				166	Private	Irrigated	0.425	Bhagirath Das S/o Murlidas Caste Beragi
				533/114	Private	Irrigated	0.013	Ramprasad s/o Gopilal Dangi
				7	Private	Irrigated	0.041	Motilal s/o Gopilal Caste Dangi
				6/2/1	Private	Irrigated	0.070	Ramprasad s/o Gopilal Dangi
				6/2/2	Private	Irrigated	0.077	Radhyeshyam S/o Gopilal Dangi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				184	Private	Irrigated	0.131	Bhawarlal Kanhailal, Madhulal s/o Umedram Dangi
				185/1	Private	Irrigated	0.010	Badrilal s/o Rambagas Dangi
				186	Private	Irrigated	0.041	Mohanlal s/o shantichandra mahajan
				6/1	Private	Irrigated	0.016	Shyamlal Devbaksh Ranglal Gangaram s/o Deviram
				6/2/3	Private	Irrigated	0.030	Motilal S/o Gopilal
11	Raj Garh	Biaora	Kachnariya	1723	Private	Irrigated	0.220	Uma Devi widow Shyam Sunder Geetadevi widow Jainarayan res. Village
				1722	Private	Irrigated	0.300	Mandir Shri Thakur Maharaj Manager Collector Distt. Rajgarh
				1721/1	Private	Irrigated	0.140	Mona W/o Manoj Gupta res. Biaora
				1721/2	Private	Irrigated	0.200	Jyoti W/o Ashish Gupta res. Biaora
				1720/2	Private	Irrigated	0.089	Mukesh Seema minor S/o Bhondu Guardian mother Bhagwati bai widow Bhondu caste braja Res. village
				1718	Private	Irrigated	0.100	Anita W/o Kailash Soni Resi. Biaora
				1718/1715/1	Private	Irrigated	0.280	Sushil Prasad S/o B.D.V. Prasad caste christian Res. Biaora
				1867/1719	Private	Irrigated	0.341	Mamta Agrawal W/o Satyanarayan Caste Mahajan Res. Biaora
				1868/1720	Private	Irrigated	0.051	Mamta Agrawal W/o Satyanarayan Caste Mahajan Res. Biaora
				1713/2	Private	Irrigated	0.164	Kantabai W/o Ghisalal Caste Brija Res. Village
				1713/1	Private	Irrigated	0.974	Ramratan, Vishnu prasad S/o Ghisalal, Sushilabai W/o Ramratan, Sunita bai W/o Vishnu prasad
				1852/1713	Private	Irrigated	0.180	Gangaram S/o Pannalal res. Biaora
				1809/1713	Private	Irrigated	0.250	Usha devi W/o N.R.Arya res. Bhopal
				1700	Private	Irrigated	1.050	Usha devi W/o N.R.Arya res. Bhopal
				1699	Private	Irrigated	0.572	Usha devi W/o N.R.Arya res. Bhopal
				1778/1698/1	Private	Irrigated	0.410	Anokhilal s/o Devbagas resi. Village
				1778/1698/2	Private	Irrigated	0.127	Omprakash Singh S/o Kamla Prasad singh caste kurmi Res. biaora
				1777/1697/1	Private	Irrigated	0.076	Anokhilal s/o Devbagas resi. Village
				1698	Private	Irrigated	0.139	Anokhilal s/o Devbagas resi. Village

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				1676	Private	Irrigated	0.180	Amar Singh s/o Pooriya Cast Khati res. Village
				1681	Private	Irrigated	0.360	Amar Singh s/o Pooriya Cast Khati res. Village
				1682/1	Private	Irrigated	0.025	Harkishan, Kantaprasad S/o Gangadhar
				1682/2	Private	Irrigated	0.112	Savita W/o R.K. Verma res. Multanpura
				1682/3	Private	Irrigated	0.113	Savita W/o R.K. Verma res. Multanpura
				1683	Private	Irrigated	0.038	Mandir Shri Laxmikantji Maharaj, Rajgarh Pujari Hemendra S/o Ramchandra Sharma Manager Collector Rajgarh
				1684	Private	Irrigated	0.076	Mandir Shri Laxmikantji Maharaj, Rajgarh Pujari Yogendra S/o Ramchandra Sharma Manager Collector Rajgarh
				1685/1	Private	Irrigated	0.088	Padma Sharma W/o Radhyeshyam Sharma
				1685/2	Private	Irrigated	0.088	Padma Sharma W/o Radhyeshyam Sharma res. Rajgarh
				1686/1	Private	Irrigated	0.170	Anshuman S/o Rajendra Kumar Res. Biaora
				1686/2	Private	Irrigated	0.170	Usha Chourasia W/o Shyam Sundar Chourasia res. Biaora
				1688/1/1	Private	Irrigated	0.107	Ramdayal s/o Laxminarayan res. Village
				1688/1/2	Private	Irrigated	0.013	Harikishan S/o Chenna res. Village
				1688/1/3	Private	Irrigated	0.125	Reliance Infocom Ltd Kachnariya (Tower)
				1688/1/4	Private	Irrigated	0.125	Reliance Infocom Ltd Kachnariya (Tower)
				1689/3	Private	Irrigated	0.083	Harikishan S/o Chenna res. Village
				1689/2	Private	Irrigated	0.215	Brajgopal S/o Badrilal res. Khilichipur present res. Biaora
				1689/1	Private	Irrigated	0.160	Durga Prasad S/o Siddulal Khati Res. Village
				1743/1	Private	Irrigated	0.100	Akhand Param Dham, Dilshad Garden Pocket R.K. in front of new delhi 95 paden Director Swami Chetnanand ji Guru, Shri Swami Pramannadji Maharaj, res. Akhand Paramdham Haridwar (UP)
				1743/2	Private	Irrigated	0.050	Gomtes Farms Manmohan Chandak S/o Shantichandra Chandak res. Biaora

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				1732/1	Private	Irrigated	0.040	Laxminarayan S/o Amarsingh Dangi res. Bhura
				1731/2/2	Private	Irrigated	0.040	Govind prasad S/o Heeralal Khati res. Village
				1744/1/1	Private	Irrigated	0.010	Smt. Madhu W/o Manmohan Chandak res. Biaora
				1730/1	Private	Irrigated	0.140	Govind prasad S/o Heeralal Res village
				1729	Private	Irrigated	0.090	Govind prasad S/o Heeralal Res. Village
				1642	Private	Irrigated	0.100	Devilal S/o Hazarilal Res. Village
				1646	Private	Irrigated	0.215	Devilal S/o Hazarilal Res. Village
				1647/1	Private	Irrigated	0.185	Umrav S/o Pannalal Res. Village
				1647/2/1/1	Private	Irrigated	0.036	Smt. Mouli Methew W/o M.N. Methew Caste Christian Res. Biaora
				1647/2/1/2	Private	Irrigated	0.343	Smt. Mouli Methew W/o M.N. Methew Caste Christian Res. Biaora
				1647/2/2	Private	Irrigated	0.186	Smt. Mouli Methew W/o M.N. Methew Caste Christian Res. Biaora
				1645/2	Private	Irrigated	0.220	Smt. Mouli Methew W/o M.N. Methew Caste Christian Res. Biaora
				1665	Private	Irrigated	0.379	Mandir Shri Thakur Maharaj Manager Collector Pujari Mangilal S/o Laxminarayan Brahmin
				1753	Private	Irrigated	0.320	Dariavnovrag D/o Ramchandra Chamar Res. Village
				1645/1	Private	Irrigated	0.039	Ramdayal S/o Dariyav singh Res. Village
				1660/1	Private	Irrigated	0.145	Kamla devi W/o Ballabdas Res. Biaora
				1660/2	Private	Irrigated	0.935	Bebibai W/o Dariyavsingh Res. Village
				1662	Private	Irrigated	0.630	Sukhram S/o Issarlal Res.. Village
				1663	Private	Irrigated	0.468	Vallabhdas S/o Mishrilal Parashar Res. Biaora
				1664/1	Private	Irrigated	0.088	Brajmohan S/o Ramprasad Res. Village
				1664/2	Private	Irrigated	0.089	Mangilal S/o Laxminarayan Res.. Village
				1670/3	Private	Irrigated	0.140	Sushilabai W/o Shyamsundar Res.. Biaora
				1670/2	Private	Irrigated	0.030	Sushilabai W/o Shyamsundar Res. Biaora
				1671	Private	Irrigated	0.050	Ajab kumar W/o roop Singh Res.. Biaora
				1670/1	Private	Irrigated	0.016	Ramesh S/o Hajarilal Res. Village

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)-	(6)	(1)	(7)	(8)
				1435	Private	Irrigated	0.126	Ramnaran S/o Ghisalal, Res. village
				1422/1	Private	Irrigated	0.025	Omprakash S/o Bramhdutt Mahajan res. Biaora
				1422/2	Private	Irrigated	0.025	Ashutosh Sarvesh S/o Gopal das minor divya D/o Gopal das Guardian mother Chandrakanta W/o Gopaldas Mahajan res. Malavar
				1421/2/1	Private	Irrigated	0.010	Mamta W/o Rajendra Kumar Mahajan Res. Biaora
				1420/1/1	Private	Irrigated	0.010	Brajmohan S/o Ramprasad res. Village
				1417/1/2/1	Private	Irrigated	0.019	Ramcharan S/o Daryav singh res. Village
				1417/1/2/2	Private	Irrigated	0.019	Dinesh S/o Ramcharan res. Village
				1417/2/2	Private	Irrigated	0.012	Sukhran S/o Isarlal res. Village
				1417/3/1	Private	Irrigated	0.010	Annokhilal, Sitaram S/o Hariprasad res. Village
				1417/3/2	Private	Irrigated	0.010	Neelam singh S/o Bhanupratap Singh res. Biaora
				1416	Private	Irrigated	0.050	Ashok Tripathi S/o Babulal, Smt. Geeta W/o Ashok Tripathi res. Biaora
				1414/1	Private	Irrigated	0.090	Bhagirath, Narayan, Ramprasad S/o shambhu, Kanchan bai widow Shambhu res. Village
				1414/2	Private	Irrigated	0.070	Rajesh, Rakesh S/o Badrilal sevbai widow Badrilal, Bhauri bai widow jagannath res. Village
				1411/1	Private	Irrigated	0.075	Yasmin bano W/o Jahid Ali res. Biaora
				1411/2	Private	Irrigated	0.075	Premnarayan S/o Hazarilal res. Amalya Hat
				676/1	Private	Non-Irrigated	0.011	Shyamlal S/o Jagannath Dangi Khajuria
				676/2	Private	Non-Irrigated	0.006	Krishna bai W/o Ramswaroop Brahmin Khajuria
				676/3	Private	Non-Irrigated	0.006	Kalluram S/o Ramjimahajan res. Sunel district Jhalawad
				676/4	Private	Non-Irrigated	0.006	Jainarayan S/o Mangilal Mahajan Res. Sonkhedi
				676/5	Private	Non-Irrigated	0.012	Savitre bai D/o Ghasiram Brahmin res. Narsinghgarh
				676/6	Private	Non-Irrigated	0.006	Vimlesh S/o Vishwanath singh Bhadoria Res. Rajgarh
				676/7	Private	Non-Irrigated	0.006	Amit kumar S/o Naval kishor Vishwas caste Namoshudra res. Barva
				676/8	Private	Non-Irrigated	0.006	Shajedabi W/o A.Jalil caste muslim res. Narsinghgarh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				676/9	Private	Non-Irrigated	0.012	Laxmichand Rameshchandra S/o Jagannath caste Teli res. Village
				676/10	Private	Non-Irrigated	0.012	Lalbhadrur singh S/o Omkarsingh Caste Rajput Res. Narsinghgarh
				676/11/1	Private	Non-Irrigated	0.006	Shivcharan S/o Kishanlal Dangi Res. Khajuriya
				676/12	Private	Irrigated	0.006	Munni bai D/o Lakhanlal Caste Darjee Res. Biaora
				676/13	Private	Non-Irrigated	0.006	Rameshchand S/o Laxmichand, Kesharsingh S/o Ramnarayan Caste Dhakad Res. Jamunia
				676/16	Private	Non-Irrigated	0.011	Suraj pal singh S/o Bherusingh Rajput res. Biaora
				676/17/1	Private	Irrigated	0.062	GokulPrasad S/o kawarlal, Chanderlal S/o Kalluram dangi Res. Village
				676/17/2	Private	Non-Irrigated	0.006	Santosh bai W/o Shivkumar malli Res. Biaora
				676/17/4	Private	Non-Irrigated	0.006	Pramod kumar S/o Shambhulal Goutam Caste Dohare Res. Aamaliya Hat
				676/17/5	Private	Non-Irrigated	0.006	Gyarsibai W/o Shrikishan res. Malavar lalitabai W/o Dharamveer Shivhare res. Chilodara district shivpuri
				676/17/6	Private	Non-Irrigated	0.006	Devendra Minor S/o Jagdish Guardian Kashalyabai widow jagdish Caste Teli Res. Village
				676/17/7	Private	Non-Irrigated	0.006	Padmabai Urf Meena W/o Rameshchandra Gupta Res. Biaora
				676/17/8	Private	Non-Irrigated	0.006	Ramswaroop S/o Heeralal, Ramsingh S/o Mangilal Caste Dhakad Res. Jamunia
				676/17/9	Private	Non-Irrigated	0.006	Chandabai W/o Omprakash Caste Mahajan Res. Biaora
				676/17/10	Private	Non-Irrigated	0.006	Moolchand S/o Ghirdarilal Khati Res. Village
				676/17/3	Private	Non-Irrigated	0.012	Jagdish S/o Dhansingh Lodha Res. Peepalya Teh. Chachoda
				676/15	Private	Non-Irrigated	0.007	Avinash S/o U.S.khare Caste Kayastha Res. Biaora
				676/14/1	Private	Non-Irrigated	0.007	Suryakant S/o Pratap Narayan Caste Brahmin Res. Biaora
				676/11/2	Private	Non-Irrigated	0.006	Badrilal S/o Mangilal Rajesh S/o Kailash Caste Dhobi Res. Morchakhedi
				676/17/11	Private	Non-Irrigated	0.006	Kanhiyalal S/o Prabhulal Caste Gurjar Res. Jarakdiyakhedi
				676/17/12	Private	Non-Irrigated	0.006	Badrilal S/o Harishankar Caste Dangi Res. Dhurla

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				676/17/13	Private	Non-Irrigated	0.012	Shyamal S/o Kwarlal Mewade caste moi res. Multanpura
				669/1	Private	Non-Irrigated	0.024	Shabbir Husain s/o Abbas Hussain Caste Bohara Res. Biaora
				669/3	Private	Non-Irrigated	0.020	Shabbir Husain s/o Abbas Hussain Caste Bohara Res. Biaora
				669/13	Private	Non-Irrigated	0.011	Dhapu bai W/o Ghisalal caste dangi res. Khejdameena
				669/4		Non-Irrigated	0.023	Prabhulal S/o Mansingh Dhakad,, Rajendra Prasad S/o Jammunalal Brahmin Res. Biaora
				669/9		Non-Irrigated	0.007	Rodibai W/o Banesingh res. Amliyahat
				669/7		Non-Irrigated	0.011	Annarbai W/o Hazarilal res. Bhura
				669/5		Non-Irrigated	0.087	Mahendra singh S/o Gopal Singh Gurjar res. Majraadharsh teh. District bhind
				668/1/2		Non-Irrigated	0.060	Bharat Bhushan s/o Harishchandra Cast Kaseri
				668/1/1		Non-Irrigated	0.160	Asha Devi W/o Dr. Yojendra Kumar Cast Kasera res. Biaora
				661/3		Non-Irrigated	0.054	Criest College by Criest Academy and Education Society by president Sushil prasad S/o B.D.V. Prasad caste Christian Res. Village
				661/1		Non-Irrigated	0.076	S.K. Saluja s/o S.L. Saluja, Kanailal s/o Kwarlal Cast Dhakad, Ashok Kumar Singh s/o Vishvanath singh caste rajput, vivek vardhan S/o P.C Mishra Res. Biaora
				660/2		Non-Irrigated	0.055	Criest College by Criest Academy and Education Society by president Sushil prasad S/o B.D.V. Prasad caste Christian Res. Village
				661/2		Non-Irrigated	0.015	Sushil Prasad S/o B.D.V. Prasad caste christian res. Biaora
				661/4		Non-Irrigated	0.011	Smt. Alka Prasad W/o Sushil Prasad caste christian res. Biaora
				660/1/1		Non-Irrigated	0.039	Gomtes Farms and Resort pvt. Ltd by Manmohan S/o Shantichandra Chandak caste mahajan res. Biaora
12	Raj Garh	Biaora	Balapur	33	Private	Irrigated	0.030	Kailash chandra S/o Premnarayan soni, Res. Biaora
				32/1/1/1	Private	Irrigated	0.030	Vallabhdas S/o Mishrilal Parashar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				32/1/1/2	Private	Irrigated	0.030	Bhavaralal, Shivanarayan S/o Hariprasad Khati Res. Kachnariya
				32/1/2	Private	Irrigated	0.030	Omprakash S/o Vallabh Das
				32/2	Private	Irrigated	0.030	Hariom, Omprakash S/o Narayan Prasad Vijayvargiye Biaora
				32/3/1	Private	Irrigated	0.030	Omprakash S/o Narayan Prasad Caste Vijayvargiye
				32/3/2	Private	Irrigated	0.030	Poonam W/o Vipin Vijayvargiye Res. Biaora
				31/1	Private	Irrigated	0.010	Bhanupratap S/o Harlal Res. Shivpuri
				31/2	Private	Irrigated	0.010	Vaillabhdas S/o Mishrilal Parashar
13	Raj Garh	Biaora	Multanpura	220/2/47	Private	Non-Irrigated	0.008	Ramprasad S/o Deviram Sahu Res. Kachnariya
				220/2/33/3	Private	Non-Irrigated	0.004	Kamlabai W/o Ramdayal Sharma Res. Seelkhedi
				220/2/35	Private	Non-Irrigated	0.004	Laxmi Narayan S/o Chunnilal Gupta
				220/2/34	Private	Non-Irrigated	0.004	Sunil Kumar S/o Laxmichand Gupta Res. Gehukhedi
				220/2/39	Private	Non-Irrigated	0.004	Amratlal S/o Devi Ram Dangi
				220/2/40	Private	Non-Irrigated	0.004	Govind S/o Gangadhar caste Khati Res. Nipaniya Gade
				220/2/41	Private	Non-Irrigated	0.004	Shiv Narayan S/o Gorelal Khati Res. Nipaniya Gade
				220/2/43	Private	Non-Irrigated	0.004	Rakhat Khan S/o Sokat Khan Res. Biaora
				220/2/44	Private	Non-Irrigated	0.004	Rukmani D/o Kishore singh kichhi Res. Rajgarh
				220/2/45	Private	Non-Irrigated	0.008	Akshay Kumar S/o Rameshchandra Dangi Caste Bheel Res. Rajgarh
				220/2/53	Private	Non-Irrigated	0.004	Jyoti W/o Vishal Chourasia Res. Biaora
				220/2/54	Private	Non-Irrigated	0.004	Kanhiyalal S/o Gulabchand Sahu Res. Biaora Rajasthan
				220/2/55	Private	Non-Irrigated	0.008	Kishoribai Widow Lalluram Mewade Res. Narsingharh
				220/2/53	Private	Non-Irrigated	0.007	Rakesh S/o Ramswaroop Mewade Res. Rajgarh
				220/2/74	Private	Non-Irrigated	0.004	Maankuwar W/o Rajendra Singh Rathor
				220/2/76	Private	Non-Irrigated	0.008	Babulal S/o Lalluji Bodaniya Res. Rajgarh
				220/2/79	Private	Non-Irrigated	0.004	Reshambai W/o Phoolsingh Yadav Res. Multanpur
				220/2/78	Private	Non-Irrigated	0.008	Sokhat khan S/o Moh. Asad khan Res. Biaora
				220/2/36	Private	Non-Irrigated	0.008	Pawan kumar S/o Krishanmohan Sharma Res. Sonkuch

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				220/2/33/4	Private	Non-Irrigated	0.004	Ramcharan S/o Madanlal Dangi Res. Kajuriya
				220/2/37	Private	Non-Irrigated	0.008	Ishtyak Mohd S/o Mustak Mohd. Res. Biaora
				220/2/56	Private	Non-Irrigated	0.004	Ramesh chandra S/o Mangilal Sharma Res. Devkhedi
				220/2/48	Private	Non-Irrigated	0.012	Radharaman S/o Narayan Baksh Vijaywargi Res. Rajgarh
				220/2/8/1	Private	Non-Irrigated	0.004	Kamladevi W/o Tikaram Sharma Res. Biaora
				220/2/71	Private	Non-Irrigated	0.008	Nirmala W/o Shyamsundar Vijayvargi Res. Rajgarh
				220/2/18/11	Private	Non-Irrigated	0.004	Pavitra W/o Ramdayal Khati Res. Multanpur
				220/2/33/1	Private	Non-Irrigated	0.004	Imran Khan s/o Sher Khan Res. Biaora
				220/2/33/2	Private	Non-Irrigated	0.004	Dharamraj singh S/o J.S. Parmar
				220/2/6 ने से	Private	Non-Irrigated	0.012	Harikrishan Mittal S/o Gheesalal Caste Mahajan Res. Biaora
				220/2/33/5	Private	Non-Irrigated	0.004	Premnarayan S/o Gheesalal Dangi
				220/2/3/6	Private	Non-Irrigated	0.004	Purshottam Kurmi S/o Kanahiyalal Kurmi
				220/2/27	Private	Non-Irrigated	0.005	Rameshchandra S/o Hajarilal Res. Kachhnariya
14	Raj Garh	Biaora	Tala Bada Urf Champapur	162/4/4	Private	Irrigated	0.030	Omprakash S/o Narayan prasad Caste Mahajan
				162/4/2	Private	Irrigated	0.060	Pavitra devi W/o Babulal, Rukmani devi W/o Rambabu Palliwal
				159/3	Private	Irrigated	0.054	Shivnarayan S/o Chhotalal Mahajan Res. Biaora
				159/6	Private	Irrigated	0.010	Kailash S/o Nandkishore Panchal Res. Biaora
				159/2	Private	Irrigated	0.050	Ramkishan S/o Mulakraj, Jasvindra Gurpreet S/o Surendra singh Gurucharan Kaur widow Surendra singh Punjabi Res. Biaora
				169/3 169/2 169/1	Private	Irrigated	0.230	Bharti Widow Shyamlal Shaaru S/o Shyamlal Samjhum S/o Shyamlal
				168	Private	Irrigated	0.150	MP Prayatan Vibhag
				161/10/1	Private	Irrigated	0.016	Sanjay vijay vinay S/o Gowardhanlal, Manorama devi widow gowardhanlal
				161/10/2	Private	Irrigated	0.016	Shrilal S/o Chhotelal
				161/10/3	Private	Irrigated	0.016	Babulal S/o Chhotelal
				161/4	Private	Irrigated	0.012	Ramkuwar W/o Mohanlal Chamar Res. Bagori

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(7)	(8)
				161/8	Private	Irrigated	0.013	Shyambai D/o Iaxminarayan , W/o Girjashankar Vajpai, Resi. Bhopal Jitendra kumar, Rajendra Kumar S/o Vidhakar Shukla Resi. Biaora
				161/5	Private	Irrigated	0.016	Jitendra Singh S/o Chandrabhansingh
				161/7	Private	Irrigated	0.022	Vishu prasad S/o Ranglal Dangi
				161/15 161/16	Private	Non-Irrigated	0.007	Shivnarayan S/o Ramprasad Dangi
				161/11	Private	Non-Irrigated	0.015	Harmeet singh S/o Shamsheer singh Res. Biaora
				161/13	Private	Non-Irrigated	0.004	Babulal S/o Ramnarayan khati Res. Kachnariya
				161/12	Private	Non-Irrigated	0.003	Bindabai D/o Jagannath khati Res. Kachnariya
				161/1 161/14	Private	Non-Irrigated	0.015	Vijay Iaxmi W/o Vishnu prasad dangi
				161/2	Private	Non-Irrigated	0.009	Prashant S/o Murliprasad Kayastha Res. Biaora
				161/3	Private	Non-Irrigated	0.006	Mohanbai widow Narayan Prasad Kayastha Res. Biaora
				161/6	Private	Non-Irrigated	0.013	Manoj S/o Kaniram Kolli
				161/9	Private	Non-Irrigated	0.073	Ramchandar Kamlabai Bhagwati bai S/o Babulal, Gangaprasad Shrilal Pavitra S/o Badrilal Galkand bai widow Badrilal Kasturi bai widow Bapulal caste dangi Resi. Padoliya
				159/1	Private	Non-Irrigated	0.009	Ratanlal S/o Shivnarayan caste Nai Resi Padoniya

[F. No. RW/NH-37014/24/2010-NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.